


अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
हैदराबाद 500007 (भारत)



वार्षिक लेखा

2016-17

अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
हैदराबाद 500007 (भारत)



वार्षिक लेखा

2016-17

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र एवं प्रतिवेदन	(i) - (x)
2.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उत्तर	(xi) - (xvii)
3.	लेखापरीक्षा वार्षिक लेखा	1 - 41
4.	भविष्य निधि लेखा	42 - 51

अजायब सिंह आईए एवं आईएस

प्रधान निदेशक

संख्या-डीजीए(सी)/सीईए/यूनिट-4/ईएफएलयू/एसएआर.2016-17/डी-376/2017-18/

तिथि 17.अक्टूबर.2017

महोदय

अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद,(इफ्लू) के वर्ष 2016-17 के खातों का लेखा परीक्षण जुलाई 2017 में किया गया। खातों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों में पृथक लेखा रिपोर्ट भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को जारी किया गया है। उसकी एक प्रति आपको भेजी गयी है। कुछ टिप्पणियाँ पृथक लेखा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गयी हैं, उन महत्वपूर्ण बातों की ओर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है, ताकि आपका कार्यालय इस पर आवश्यक कार्रवाई करे।

1. 18,48,787/- के स्टाफ आवासीय भवन का मूल्यहास अनुचित रूप से 10 प्रतिशत (1,84,879/-) उपलब्ध कराया गया है, जबकि आईटी अधिनियम के अंतर्गत इसे 5 प्रतिशत(92,440) होना चाहिए था। इसके कारण 92,440/- का अंतर से अधिक मूल्यहास का प्रावधान हो गया है, इसे सुधारने की आवश्यकता है।

2. विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित दुकानों से प्राप्त भाड़े से अर्जित आय 1,58,500/- को अनुचित रूप से अन्य आय के अंतर्गत वर्गीकृत है (अनुसूची-13 पृष्ठ 26), जबकि एमएचआरडी के खाता पद्धति मानक (क्रम संख्या 3 पृष्ठ 89) के अनुसार इसे आय एवं व्यय खातों के भाड़े के अंतर्गत होना चाहिए।(वार्षिक खातों की अनुसूची 11 पृष्ठ 24) इसके अलावा दुकानों के साथ विश्वविद्यालय के संबंधितपरिसर को लीज़ पर दिये जाने की जानकारी मासिक भाड़े के साथ खातों पर टिप्पणियों में शामिल किया जान चाहिए।

1. (i) जेराक्स शॉप, (ii) आइरोनिंग शॉप, (iii) बुक शाप, (iv) मैट्री रेस्टरां (v) सागर स्टोर एवं (vi) क्वार्टर्स के पास की दुकान

3. एनपीएस खातों के वित्तीय बयानों परिषियों में (वार्षिक खातों के पृष्ठ 52) कुछ स्थानों पर बताया गया है कि कुछ कर्मचारियों ने स्थायी सेवानिवृत्तक्षित खाता संख्या(पीआरएएन) प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि वे एनपीएस के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से सहमत न होकर अदालत में याचिका दाखिल कर चुके हैं। विश्वविद्यालय के खिलाफ दाखिल किये गये अदालती मामलों की विस्तृत जानकारी एनपीएस योगदान की बढ़ती राशि (नियोक्ता और कर्मचारियों का हिस्सा और व्याज) लेखा पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाना चाहिए, जैसा कि एमएचआरडी लेखा पद्धति के नियम हैं।(पृष्ठ50 क्रम संख्या 1.1)

4. 1,7517,833/- की राशि अनुसूची 21 में अन्य आय के अंतर्गत दर्शायी गयी है। यदि 1,7517,833/- की राशि विश्वविद्याय द्वारा फेलोशिप के रूप में प्रदान की गयी है तो एमएचआरडी लेखा मानकों के अनुसार यह अनुसूची -16 के अंतर्गत शैक्षणिक व्यय के रूप में दर्ज की जानी चाहिए। यदि यूजीसी द्वारा प्रायोजित गैर नेट फेलोशिप है तो उसे एमएचआरडी के नियमों के अनुसार स्रोत के साथ संबंधित खातों में शामिल करना चाहिए।

5. वार्षिक खातों में निम्न अंतर पाये गये हैं, उन्हें सुधार के साथ वास्तविक आवृत्तियाँ एवं भुगतान के अंतर्गत दर्ज किया जान चाहिए।

क्र. स.	विवरण	आवृत्तियाँ भुगतान खाते के अनुसार, पृष्ठ संख्या 3	अनुसूची 2 के अनुसार पृष्ठ संख्या 5	अंतर
ए	निर्धारित एवं धर्मस्व निधियों के अंतर्गत आवृत्तियाँ	शून्य	32,81,913/- (अनौपचारिक निधियों के लिए अतिरिक्त)	32,81,913/-
बी	निर्धारित एवं धर्मस्व निधियों के अंतर्गत भुगतान	19,80,000/-	1,06,94,229/- (राजस्व व्यय)	87,14,229/-

भवदीय
महानिदेशक

प्रो. ई. सुरेश कुमार
कुलपति
अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
उस्पानिया विश्वविद्यालय कैंपस, तारनाका
हैदराबाद 500605

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के खातों पर भारत के कंप्टोलर एवं महालेखाकार की पृथक लेखा रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2017 को प्रस्तुत अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के संलग्न तुलनपत्र, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान खातों का लेखा परीक्षण कंप्टोलर एवं महालेखाकार(कर्तव्य, अधिकार एवं शर्त सेवा) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) (अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, अधिनियम 2006 के सेक्षन 33(1) के साथ पढ़ा जाए) के अंतर्गत किया है। इन वित्तीय बयानों के प्रति विश्वविद्यालय प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी जिम्मेदारी लेखा नियमों के अनुसार इन वित्तीय बयानों पर अपना पक्ष रखना है।
2. इस पृथक लेखा रिपोर्ट में उत्तम लेखा प्रक्रिया एवं मानकों तथा नियमों आदि के आधार पर कार्यों के वर्गीकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए केवल लेखा रखरखाव पर भारत के कंप्टोलर एवं महालेखाकार(कैग) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। विधि एवं नियम एवं कार्यक्षमता तथा कार्यप्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय लेन-देन के परीक्षण के दौरान पायी गयी शिकायत, यदि कोई है तो उसे जांच रपट/कैग की लेखा रिपोर्ट में पृथक रूप से शामिल किया गया है।
3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार, हमें योजना बनाकर इस विश्वास के साथ लेखा परीक्षण करना पड़ता है कि वित्तीय बयानों में किसी प्रकार गुमराह करने का प्रयास नहीं किया गया है। लेखा में परीक्षण में संबंधित राशि के लिए उपलब्ध सबूतों एवं वित्तीय बयानों के निष्कर्ष के आधार देखे जाते हैं। लेखा में प्रबंधन द्वारा अपनाए गये लेखा सिद्धांत एवं महत्वपूर्ण आकलनों के अलावा संपूर्ण वित्तीय बयानों का व्यापक मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी टिप्पणियों के लिए उपयुक्त आधार है।

पृष्ठ 7 का 1

4. हमारे लेखा परीक्षण के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत है:

- i. हमने सभी प्रकार की सूचनाएं एवं स्थितिकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए अनिवार्य है।
- ii. इस रिपोर्ट में उल्लेखित तुलनपत्र और आय एवं व्यय खाते/प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाते वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पद्धति से तैयार नहीं किये गये हैं, ना ही मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संस्थानों के लिए तैयार किये गये खातों के संशोधित प्रारूप पर अमल किया गया है।
- iii. हमारे पक्ष में खाता पुस्तके एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड का रखरखाव विश्वविद्यालय ने उसी तरह किया है, जैसा कि हमारे परीक्षण में इस तरह की पुस्तकों का होना चाहिए।
- iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं:

ए. तुलन पत्र

ए 1. निधियों के स्रोत

ए 1.1 चालू देयताएँ एवं प्रावधान : 166.00 करोड़ (अनुसूची -3)

ए 1.1.1 इसमें विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित आंतरिक आय निधि समापन शेष राशि रुपये 6,77,83,098/-¹ शामिल है, जो आय एवं व्यय खाते (अनुसूचि 13) के अन्य आय में दर्ज करने के बजाय अनुचित रूप से प्रायोजित परियोजना के तहत दर्ज की गयी है, हालांकि इसके बारे में मानव संसाधन मंत्रालय के खाता रखरखाव मानक (पृष्ठ 32) हैं और पूर्व के की लेखा टिप्पणियों में बताया गया था। इसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं में अतियुक्त हुई है और 6.78 करोड़ रुपये आय की न्यूनोक्ति तथा 6.78 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है।

ए 1.1.2 इसमें आवास भवन अग्रिम चक्रबाति निधि समापन शेष राशि 2,45,15,915 के रूप में शामिल है, जो एमएचआरडी के मानकों के अनुसार, निर्देशित/निर्धारित निधियों में दर्शने के बजाय अनुचित रूप से प्रायोजित परियोजना के तहत दर्ज की गयी है। इसके परिणाम स्वरूप निर्देशित/निर्धारित निधियों की चालू देयताओं में 2.45 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति हुई है।

¹ अनौपचारिक अंग्रेजी पाठ्यक्रम के संचालन से प्राप्त आंतरिक आय 1,73,10,537 और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन से प्राप्त आय 5,04,72,561 कुल 6,77,83,098 रुपये

ए.2 निधि के उपयोग

ए.2.1 स्थिर परिसंपत्तियाँ 71.66 करोड (अनुसूची 4)

ए.2.1.1 आईटी अधिनियम के लघु प्रावधान के अंतर्गत 1,01,45,744 का मूल्यहास 1,56,08,837 रुपये के सौर उपकरणों का मूल्यहास 80 प्रतिशत (1,24,87,070 रुपये) दर्शाने के बजाय अनुचित रूप से 15% (23,41,326 रुपये) दर्शाया गया है। इसके परिणाम स्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों में 1.01 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति और व्यय में 1.01 करोड़ रुपये अतियुक्ति दर्ज हुई है और 1.01 करोड़ रुपये का घाटा भी दर्ज हुआ है।

ए.2.1.2 इसमें स्तर परिसंपत्तियों के रूप में 46,22,055 के इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं, जो अनुचित रूप से इलेक्ट्रिकल समग्री के रूप में दर्ज करते हुए 80 प्रतिशत मूल्यहास(36,14,973) दर्शाया गया है, जबकि इस पर 15 प्रतिशत मूल्यहास(6,77,806) दर्शना चाहिए था। 29,37,167 के अधिक मूल्यहास प्रावधान के कारण स्थिर परिसंपत्तियों में 0.29 करोड़ रुपये की अतियुक्ति और इतना ही अतियुक्ति घाटा 0.29 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

बी. सामान्य

- पूर्व लेखा टिप्पणियों (वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 की पृथक लेखा रिपोर्ट में) के बावजूद भूमि की विस्तृत जानकारी 1) आन्ध्र प्रदेश सरकार से मार्च 2009 में नलगोड़ा जिले के पोचमपल्ली मंडल सथित जाललपुर ग्राम में आवंटित 90 एकड़ भूमि (हसांतरण लंबित) एवं 2) केरल सरकार द्वारा राज्य में नया कैम्पस स्थापित करने के लिए प्राप्त की गयी 75 एकड़ भूमि का उल्लेख लेखा टिप्पणियों में उचित रूप से शामिल नहीं है। हालांकि विश्वविद्यालय ने इस संबंध में बताया है कि भूमि आवंटन संबंधि भागला कार्यकारिणी परिषद बैठक² में है। भूमि की विस्तृत जानकारी लेखा टिप्पणियों में शामिल न करने का कारण व्यवस्थित रूप से नहीं बताया गया है।

² (i) 7वीं कार्यकारिणी बैठक 24.1.2010 को संपन्न हुई थी। {(प्रस्ताव 3(ए)} और (ii) 14 वीं कार्यकारिणी बैठक 13.5.2013 को संपन्न हुई। (प्रस्ताव सं. 3 भाग-2)

2. वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अतिरिक्त योजना निधि के अंतर्गत हॉट स्पॉट/वार्हफार्व कैंपस कनेक्ट के लिए विश्वविद्यालय को 3,06,53,000 रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 2,44,80,000 रुपये एम/एस नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इन्कार्पोरेटेड(एनआईसीएसआई) नयी दिल्ली को अग्रिम के रूप में अदा किये गये। (जबकि गैर खर्चित अनुदान(पूँजी खाते में अग्रिम सहित) अनुसूची-3(सी) में गैर खर्चित अनुदान के रूप में नहीं दर्शाया गया और अनुचित रूप से अनुसूचा-3 की अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत अन्य निधि में दर्शाया गया, जो एमएचआरडी के खाता नियमों(पृष्ठ 9 और 10) से मेल नहीं खाता।

3. हालाँकि पूर्व लेखा परीक्षण में इस ओर ध्यान दिलाया गया है फिर भी निम्न बातें एमएचआरडी के मानकों के अनुसार, वार्षिक खातों में नहीं दर्शायी गयी हैं।

ए. अनुसूची 4(सी) के अनुसार (वार्षिक खातों की अनुसूची 4(3) पृष्ठ 15) 10,87,120 की अमूर्त परिसंपत्तियाँ- (एमएचआरडी लेखा पद्धति (पृष्ठ 16 और 13))।

बी. निर्धारित निधि और प्रायोजित परियोजना से क्रमशः 23,10,283 एवं 3,37,080 से खरीदी गयी परिसंपत्तियाँ समग्र पूँजी निधि(वार्षित खातों का पृष्ठ 4) के अंतर्गत लिया गया है, जबकि खरीदी गयी सामग्री अनुसूची 4 (डी) में उसी तरह नहीं दर्शायी गयी है। जबकि एमएचआरडी लेखा पद्धति के मानक हैं।(पृष्ठ सं. 18)

4. निर्देशित/निर्धारित/धर्मस्व निधि (अनुसूची-2 पृष्ठ 5) में अनौपचारिक निधि खातों के अंतर्गत समापन शेष 20,98,60,651 दर्शाया गया है, जबकि समापन शेष की विस्तृत जानकारी में यह राशि 16,84,43,671 दर्शायी गयी है, 4,14,16,980 का अंतर उसके अनुसार समायोजित नहीं किया गया है। पूर्व लेखा टिप्पणियों में ध्यान दिलाए जाने के बावजूद यह अंतर बही खातों और वर्तमान नगद/बैंक शेष में नहीं दर्शाया गया है।

पृष्ठ 7 का 4

5. मरम्मत न की जा सकने वाले/बेकार/अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर सामान न ही उपयोग में लाये जा रहे हैं और न ही उन्हें हटाने के लिए निम्न प्रक्रिया पर अमल किया गया है। लेखा नियम के मानक 10 अनुच्छेद 14.2 के अनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों की सामग्री अनुपयोगी हो जाती है और उसे हटाने के लिए रखा जाता है तो उसे उसके शुद्ध मूल्य से कम उचित मूल्य का आकलन कर वित्तीय बयानों में अलग से दर्शाया जाता है, जबकि यहाँ उन्हें उचित रूप से नहीं दर्शाया गया है।

6. अनुसूची 15 (क्र. संख्या एफ(2) वार्षिक खातों का पृष्ठ 28 में दर्शाया गया है कि वर्ष के दौरान कुल 6,09,46,162 रुपये सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में अदा किये गये। उप सूची 15 ए में (वार्षिक खातों का पृष्ठ 29) में केवल 4,61,89,684 दर्शाया गया है। उप सूची में उचित रूपसे संख्या दर्ज न करने के कारण 1,47,56,478 का अंतर आया है, जो निम्न प्रकार है।

क्र. स.	विवरण	वास्तविक रूप से अदा की गयी राशि	अनुसूचि 15 ए में बतायी गयी राशि	अंतर
I.	सेवानिवृत्ति ग्रैचुएटी	1,38,77,438/-	4,34,326/-	1,34,43,112/-
ii.	सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को मेडिकल पुनर्पुर्गतान	30,75,455/-	27,31,201/-	3,44,254/-
iii.	पेशन विनिमय	92,26,505/-	82,57,393/-	9,69,112/-
कुल अंतर				1,47,56,478/-

7. अनुसूची 3(सी) और अनुसूची 10 के आंकड़ों तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र में अंतर है विश्वविद्यालय की लेखा प्रक्रिया के अनुसार, समझने के लिए उनका वार्षिक लेखा में उचित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, हालाँकि इस संबंध में पूर्व लेखा टिप्पणियों में कहा गया था।

क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 22 के अनुसार राशि	अंतर
ए.	गैर योजना राजस्व खर्च	69,96,95,168/-	59,95,56,441/-	10,01,38,727 /-
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त गैर योजना अनुदान	60,92,68,000/-	59,95,56,441/-	97,11,559/-
क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 22 के अनुसार राशि	उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार,
सी	गैर योजना राजस्व खर्च	69,96,95,168/-	59,95,56,441/-	66,26,76,00 0/-
डी		9,45,82,451/-	4,66,68,534/-	6,99,16,000/-
ई		25,81,96,783/-	लागू नहीं होता	4,84,11,000/-
एफ		नहीं बताया गया	लागू नहीं होता	3,61,88,000/-
जी		नहीं बताया गया	लागू नहीं होता	3,98,49,000 /-

सी. खातों पर लेखा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव

उपर्युक्त अनुच्छेदों में दिये गये लेखा टिप्पणियों के शुद्ध प्रभाव स्वरूप देयताओं में 6.78 करोड़, परिसंपत्तियों में 0.72 करोड़ की की अतियुक्ति व 6.06 करोड़ का घाटा हुआ है।

डी. अनुदान सहयोग

वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान सहयोग 88.89 करोड़ (योजना 19.96³ करोड़, गैर योजना 60.93 करोड़ (मार्च 2017 के दौरान मंजूर 5.90 करोड़ को मिला कर) पूर्व वर्ष का कुल मिलाकर गैर खर्चित शेष 39.2 करोड़ रुपये है और वर्ष के दौरान अर्जित समायोजित प्राप्तियाँ 24.51 करोड़⁴ कुल 144.60 करोड़, विश्वविद्यालय ने 112.39 करोड़⁵ का उपयोग किया, तथा 32.21 करोड़ रुपये का शेष 31 मार्च 2017 को गैर खर्चित रहा।

ई. प्रबंधन का पत्र

पृथक लेखा रिपोर्ट में जिन बातों का अभाव है, वह अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के कुलपति के ध्यान में लायी गयी हैं। शिकायत समाधान के लिए एक प्रबंधन पत्र अलग से लिखा गया है।

v. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में परीक्षण के अनुसार, तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय खाते, प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाते इस रिपोर्ट में खाता पुस्तकों के साथ समझौते के अंतर्गत रखे गये हैं।

vi. हमारे पक्ष में और हमे उपलब्ध उत्तम सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टिकरणों में, इन वित्तीय बयानों को लेखा नितियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए तथा जहाँ तक उपर्युक्त एवं लेखा रिपोर्ट संलग्निका में उल्लेखित महत्वपूर्ण मुद्दों का संबंध है, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, स्वच्छ एवं वास्तविक दृष्टि प्रदान की गयी है।

ए. अब तक तुलनपत्र का संबंध है, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के 31 मार्च 2017 तक के मामलों को शामिल किया गया है।

बी. अब तक संबंधित तिथि पर समाप्त वर्ष के घाटायुक्त आय एवं व्यय खातों का मामला है।

अजायब सिंह

महा लेखा निदशक (केंद्रीय)

³ (i) 12वीं योजना सामान्य विकास 16.90 करोड़ और (ii) विश्वविद्यालय में कैपस कनेक्ट के अंतर्गत हॉट स्पॉट और वाइफाई के लिए अतिरिक्त योजना अनुदान 3.06 करोड़ रुपये।

* योजना 10.35 करोड़ एवं गैर योजना 14.16 करोड़

(i) बारहवीं योजना का सामान्य विकास -राजस्व 9.46 करोड़, पूँजी 25.82 करोड़ तथा समायोजित भुतान 7.14 करोड़ और (ii) गैर योजना 69.97 करोड़ रुपये पूर्ण कुल 112.39 करोड़

संल्पनिका

1. आंतरिक लेखा की पर्याप्तता: आंतरिक लेखा शाखा में एक सेवानिवृत्त अधिकारी एवं एक सेक्षण अधिकारी कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय के सभी विभागों पर आधारित वर्ष 2013-14 के लेन देन की जानकारी को शामिल करते हुए वर्ष 2014-15 में आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया है और वर्ष 2013-14 का आंतरिक लेखा परीक्षण पूरा बताया गया है और संबंधित विभागों को आंतरिक लेखा रिपोर्ट भेजी गयी है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लेन देन के आंतरिक लेखा परीक्षण की योजना पर कार्य जारी है इसका मसौदा अनुमति के लिए संबंधित प्राधिकरण को सौंपा गया है। विश्वविद्यालय और उसके लखनऊ और शिलांग दो कैपस का चरणबद्ध तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षण व समय समय पर निर्धारित समयावधि में खातों की जाँच के लिए आंतरिक लेखा प्रबंधन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। हालाँकि पूर्व का लेका रिपोर्ट में निर्दिष्ट किये जाने के बावजूद विश्वविद्यालय ने लेखा एवं खाता पुस्तकों का आंतरिक रखरखाव नहीं है, आंतरिक लेखा में किसी प्रकार की त्रृटियाँ नहीं हैं।
2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता : आंतरिक लेखा नियंत्रण पद्धति अपर्याप्त है :
 - i. विश्वविद्यालय और उसके लखनऊ और शिलांग दो कैपस का चरणबद्ध तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षण व समय समय पर निर्धारित समयावधि में खातों की जाँच के लिए आंतरिक लेखा प्रबंधन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है,
 - ii. पुस्तकालय के किताबों की व्यक्तिगत जाँच नहीं की गयी है।
 - iii. स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जाँच नहीं की गयी है।
 - iv. भूमि से संबंधित जाँच व्यवस्थित रूप से नहीं बतायी गयी है।
 - v. मरम्मत न करने लायक/बेकार/अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर के सामान को मानक 10 की अनिवार्यता के अनुसार वित्तीय बयानों में अलग से नहीं दर्शाया गया है।
3. स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जाँच पद्धति : वर्ष 2016-17 के लिए स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जाँच पूरी नहीं की गयी है बताया गया है कि इसका कार्य जारी है। विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत जाँच के लिए समितियों का गठन नहीं किया गया है। साथ ही सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 215 के अनुसार, पुस्तकालय की किताबों को वार्षिक खातों में नहीं दर्शाया गया और न उनकी व्यक्तिगत जाँच करवायी गयी है। विश्वविद्यालय ने संबंधित विभागों की बस्तुओं को उनकी उपलब्धता के अनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में दर्ज किया है, हालाँकि इसके बारे में पूर्व लेखा रिपोर्टों में बताया गया था।
4. वस्तुसूची के व्यक्तिगत जाँच की पद्धति : वर्ष 2016-17 के लिए वस्तुसूची की वार्षिक व्यक्तिगत जाँच की नहीं की गयी है और बताया गया है कि यह कार्य जारी है।
5. कानूनी देयता के भुगतान में नियामक : कानूनी देय नियमित रूप से अदा किये जा चुके हैं।

(के लिए)
निदेशक/ केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षा

31 मार्च 2017 को समाज वर्ष की पृथक लेखा रिपोर्ट के उत्तर

क्र. सं.	लेखा परीक्षण	प्रबंधन के उत्तर
ए.	तुलन पत्र	
ए 1.	निधियों के स्रोत	
ए 1.1	चालू देयताएँ एवं प्रावधान : 166.00 करोड़ (अनुसूची -3)	विश्वविद्यालय कानून के नियम में 20 बताए गये दिशानिर्देशों के अनुसार, और औपचारिक पाठ्यक्रमों से प्राप्त आय प्राथमिक रूप से विभिन्न विकासात्मक निधियों जैसे विद्यार्थी कल्याण निधि, शिक्षक कल्याण निधि आदि में वितरित करने के लिए आंतरिक आय निधि को स्थानांतरित की गयी। इसलिए इसे आय एवं व्यय के अंतर्गत नहीं रखा गया। लेखाकार को बताया जाता है कि यहाँ चालू देयताओं में अतियुक्त हुई है और 6.78 करोड़ रुपये आय की न्यूनोक्ति तथा 6.78 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है।
ए 1.1.1	इसमें विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित आंतरिक आय निधि समापन शेष राशि रुपये 6,77,83,098/- ¹ शामिल है, जो आय एवं व्यय खाते (अनुसूची 13) के अन्य आय में दर्ज करने के बजाय अनुचित रूप से प्रायोजित परियोजना के तहत दर्ज की गयी है, हालांकि इसके बारे में मानव संसाधन मंत्रालय के खाता रखरखाव मानक (पृष्ठ 32) हैं और पूर्व के की लेखा टिप्पणियों में बताया गया था। इसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं में अतियुक्त हुई है और 6.78 करोड़ रुपये आय की न्यूनोक्ति तथा 6.78 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है।	
ए 1.1.2	इसमें आवास भवन अग्रिम चक्रवाति निधि समापन शेष राशि 2,45,15,915 के रूप में शामिल है, जो एमएचआरडी के मानकों के अनुसार, निर्देशित/निर्धारित निधियों में दर्शाने के बजाय अनुचित रूप से प्रायोजित परियोजना के तहत दर्ज की गयी है। इसके परिणाम स्वरूप निर्देशित/निर्धारित निधियों की चालू देयताओं में 2.45 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति हुई है।	एचबीए चक्रवाली निधि प्रायोजित परियोजना निधि के अंतर्गत दर्शायी गयी है। लेखा के सुझाव के अनुसार, आगले वर्ष इसे निर्धारित निधि में वर्गीकृत किया जाएगा।
ए.2	निधि के उपयोग	
ए.2.1	स्थिर परिसंपत्तियाँ 71.66 करोड़ (अनुसूची 4)	
ए.2.1.1	आईटी अधिनियम के लघु प्रावधान के अंतर्गत 1,01,45,744 का मूल्यहास 1,56,08,837 रुपये के सौर उपकरणों का मूल्यहास 80 प्रतिशत (1,24,87,070 रुपये) दर्शाने के बजाय अनुचित रूप से 15% (23,41,326 रुपये) दर्शाया गया है। इसके परिणाम स्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों में 1.01 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति और व्यय में 1.01 करोड़ रुपये अतियुक्त दर्ज हुई है और 1.01 करोड़ रुपये का घाटा भी दर्ज हुआ है।	लेखा की टिप्पणी दर्ज कर ली गयी है। सौर उपकरण योजना एवं मशिनरी के साथ 80 प्रतिशत मूल्यहास आगले वर्ष से दर्ज किया जाएगा।
ए.2.1.2	इसमें स्तर परिसंपत्तियों के रूप में 46,22,055 के इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं, जो अनुचित रूप से इलेक्ट्रिकल समग्री के रूप में दर्ज करते हुए 80 प्रतिशत मूल्यहास(36,14,973) दर्शाया गया है, जबकि इस पर 15 प्रतिशत मूल्यहास(6,77,806) दर्शाना चाहिए था। 29,37,167 के अधिक मूल्यहास प्रावधान के कारण स्थिर परिसंपत्तियों में 0.29 करोड़ रुपये की अतियुक्त और इतना ही अतियुक्त घाटा 0.29 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।	इलेक्ट्रिकल फिटिंग पर मूल्य हास आईटी अधिनियम के अनुसार 10 प्रतिशत है। लेखा के सुझाव पर आगले वर्ष अमल में लाया जाएगा।
बी.	सामान्य	
1.	1. पूर्व लेखा टिप्पणियों (वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 की पृथक लेखा रिपोर्ट में) के बावजूद भूमि की विस्तृत जानकारी 1) आञ्चल प्रदेश सरकार से मार्च 2009 में नलगोडा जिले के पोचमपल्ली मंडल सथित जाललपुर ग्राम में आवंटित 90 एकड़ भूमि (हस्तांतरण लंबित) एवं 2) केरल सरकार द्वारा राज्य में नया कैम्पस स्थापित करने के लिए प्राप्त की गयी 75 एकड़ भूमि का उल्लेख लेखा टिप्पणियों में उचित रूप से शामिल नहीं है। हालांकि विश्वविद्यालय ने इस संबंध में बताया है कि भूमि आवंटन संबंधी मामला कार्यकारिणी परिषद बैठक ² में है। भूमि की विस्तृत जानकारी लेखा टिप्पणियों में शामिल न करने का कारण व्यवस्थित रूप से नहीं बताया गया है।	पिछले बर्षों में लेखा उत्तरों में बताया गया है कि संबंधित भूमि विश्वविद्यालय के कब्जे में नहीं है। इसलिए सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार, उसका वर्णन नहीं किया गया है।

2.	<p>वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अतिरिक्त योजना निधि के अंतर्गत हॉट स्पॉट/वाईफाई कैपस कनेक्ट के लिए विश्वविद्यालय को 3,06,53,000 रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 2,44,80,000 रुपये एम/एस नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इन्कार्पोरेटेड(एनआईसीएसआई) नयी दिल्ली को अधिग्रहण के रूप में अदा किये गये। (जबकि गैर खर्चित अनुदान(पूँजी खाते में अधिग्रहण सहित) अनुसूची-3(सी) में गैर खर्चित अनुदान के रूप में नहीं दर्शाया गया और अनुचित रूप से अनुसूची-3 की अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत अन्य निधि में दर्शाया गया, जो एमएचआरडी के खाता नियमों(पृष्ठ 9 और 10) से भेल नहीं खाता।</p>	<p>यह अतिरिक्त अनुदान विश्वविद्यालय कैपस में हॉट स्पॉट और वाई फाई स्थापित करने के लिए 12 वीं योजना के अंतर्गत जारी किया गया था, योजना पुस्तक अनुदान के अंतर्गत मंजूर नहीं किया गया था। इस अनुदान को अनुदान में दर्ज करने के लिए पृथक प्रयोग प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे सामान्य योजना निधियों के अंतर्गत दर्ज मिलाया नहीं गया है।</p>
3.	<p>3. हालांकि पूर्व लेखा परीक्षण में इस ओर ध्यान दिलाया गया है फिर भी निम्न खाते एमएचआरडी के मानकों के अनुसार, वार्षिक खातों में नहीं दर्शायी गयी हैं।</p> <p>ए. अनुसूची 4(सी) के अनुसार (वार्षिक खातों की अनुसूची 4(3) पृष्ठ 15) 10,87,120 की अमूर्त परिसंपत्तियाँ (एमएचआरडी लेखा पद्धति (पृष्ठ 16 और 13))</p> <p>बी. निर्धारित निधि और प्रायोजित परियोजना से क्रमशः 23,10,283 एवं 3,37,080 से खरीदी गयी परिसंपत्तियाँ समग्र पूँजी निधि(वार्षिक खातों का पृष्ठ 4) के अंतर्गत लिया गया है, जबकि खरीदी गयी सामग्री अनुसूची 4 (डी) में उसी तरह नहीं दर्शायी गयी है। जबकि एमएचआरडी लेखा पद्धति के मानक हैं।(पृष्ठ सं. 18)</p>	<p>ए) के सं बंध में</p> <p>अमूर्त परिसंपत्तियों को अगले वर्ष के खातों में अलग से दर्शाया जाएगा।</p> <p>बी) के सं बंध में</p> <p>निर्धारित निधियों से खरीदी गयी परिसंपत्तियों का विवरण अगले वर्ष के खातों में अलग से दर्शाया जाएगा।</p>
4.	<p>निर्देशित/निर्धारित/धर्मस्व निधि (अनुसूची-2 पृष्ठ 5) में अनौपचारिक निधि खातों के अंतर्गत समापन शेष 20,98,60,651 दर्शाया गया है, जबकि समापन शेष की विस्तृत जानकारी में यह राशि 16,84,43,671 दर्शायी गयी है, 4,14,16,980 का अंतर उसके अनुसार समायोजित नहीं किया गया है। पूर्व लेखा टिप्पणियों में ध्यान दिलाए जाने के बावजूद यह अंतर बही खातों और वर्तमान नगद/बैंक शेष में नहीं दर्शाया गया है।</p>	<p>लेखा की टिप्पणी दर्ज कर ली गयी है। अनौपचारिक निधि में सुधार किया जाएगा।</p>
5.	<p>मरम्मत न की जा सकने वाले/बेकार/अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर सामान न ही उपयोग में लाये जा रहे हैं और न ही उन्हें हटाने के लिए निम्न प्रक्रिया पर अमल किया गया है। लेखा नियम के मानक 10 अनुच्छेद 14.2 के अनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों की सामग्री अनुपयोगी हो जाती है और उसे हटाने के लिए रखा जाता है तो उसे उसके शुद्ध मूल्य से कम उचित भूल्य का आकलन कर वित्तीय बयानों में अलग से दर्शाया जाता है, जबकि यहाँ उन्हें उचित रूप से नहीं दर्शाया गया है।</p> <p>अध्यास के अनुसार सभी अन्य सामग्री जो बेकार, खराब और अनुपयोगी आदि है उसे हटाया जाता है या समय समय पर नीलाम किया जाता है और उससे होने वाली आय अन्य आय में खाता पुस्तकों में दर्ज की जाती है। लेखाकार इस बात पर ध्यान दें कि यह हर साल की सामान्य निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार, अलग से या समायोजित पद्धति से दर्ज नहीं किया या है।</p>	<p>अध्यास के अनुसार सभी अन्य सामग्री जो बेकार, खराब और अनुपयोगी आदि है उसे हटाया जाता है या समय समय पर नीलाम किया जाता है और उससे होने वाली आय अन्य आय में खाता पुस्तकों में दर्ज की जाती है। लेखाकार इस बात पर ध्यान दें कि यह हर साल की सामान्य निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार, अलग से या समायोजित पद्धति से दर्ज नहीं किया या है।</p>

6.

अनुसूची 15 (क्र. संख्या एफ(2) वार्षिक खातों का पृष्ठ 28 में दर्शाया गया है कि वर्ष के दौरान कुल 6,09,46,162 रुपये सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में अदा किये गये। उप सूची 15 ए में (वार्षिक खातों का पृष्ठ 29) में केवल 4,61,89,684 दर्शाया गया है। उप सूची में उचित रूपसे संख्या दर्ज न करने के कारण 1,47,56,478 का अंतर आया है, जो निम्न प्रकार है।

लेखा टिप्पणियाँ दर्ज की गयी हैं और अनुसूची 15 ए अगले वर्ष से उचित रूप से दर्शायी जाएगी। इसलिए कृपया इस बात को दर्ज कर लिया जाए कि मुख्य अनुसूची 15 को ठीक नहीं किया जा सकता।

क्र. स.	विवरण	वास्तविक रूप से अदा की गयी राशि	अनुसूची 15 ए में दर्शायी गयी राशि	अंतर
i	सेवानिवृत्ति मैच्युएटी	1,38,77,438/-	4,34,326/-	1,34,43,112/-
ii	सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को मेडिकल पुनर्भुगतान	30,75,455/-	27,31,201/-	3,44,254/-
iii	पेशन विनिमय	92,26,505/-	82,57,393/-	9,69,112/-
कुल अंतर				1,47,56,478/-

	7. अनुसूची 3(सी) और अनुसूची 10 के आंकड़ों तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र में अंतर है विश्वविद्यालय की लेखा प्रक्रिया के अनुसार, समझने के लिए उनका वार्षिक लेखा में उचित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि इस संबंध में पूर्व लेखा टिप्पणियों में कहा गया था।	उपयोगिता प्रमाण पत्र नगद आधार पर और वार्षिक खाते प्रोद्धवन आधार पर तैयार किया गये हैं।		
क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 22 के अनुसार राशि	अंतर
ए.	गैर योजना राजस्व खर्च	69,96,95,168/-	59,95,56,441/-	10,01,38,727/-
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त गैर योजना अनुदान	60,92,68,000/-	59,95,56,441/-	97,11,559/-
क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 22 के अनुसार राशि	उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार,
क्र. स.	विवरण	वार्षिक खातों की अनुसूची 3 सी पृष्ठ 11 के अनुसार राशि	वार्षिक खातों की अनुसूची 10सी पृष्ठ 22 के अनुसार राशि	उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार,
सी	गैर योजना राजस्व खर्च	69,96,95,168/-	59,95,56,441/-	66,26,76,000/-
डी		9,45,82,451/-	4,66,68,534/-	6,99,16,000/-
ई		25,81,96,783/-	लागू नहीं होता	4,84,11,000/-
एफ		नहीं बताया गया	लागू नहीं होता	3,61,88,000/-
जी		नहीं बताया गया	लागू नहीं होता	3,98,49,000/-
सी.	. खातों पर लेखा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव उपर्युक्त अनुच्छेदों में दिये गये लेखा टिप्पणियों के शुद्ध प्रभाव स्वरूप देयताओं में 6.78 करोड़, परिसंपत्तियों में 0.72 करोड़ की की अतिथुक्त व 6.06 करोड़ का घाटा हुआ है।			

डॉ.	अनुदान सहयोग वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान सहयोग 88.89 करोड़ (योजना 19.96 ³ करोड़, गैर योजना 60.93 करोड़ (मार्च 2017 के दौरान मंजूर 5.90 करोड़ को मिला कर) पूर्व वर्ष का कुल मिलाकर गैर खर्चित शेष 39.2 करोड़ रुपये है और वर्ष के दौरान अर्जित समायोजित प्राप्तियाँ 24.51 करोड़ ⁴ कुल 144.60 करोड़, विश्वविद्यालय ने 112.39 करोड़ ⁵ का उपयोग किया, तथा 32.21 करोड़ रुपये का शेष 31 मार्च 2017 को गैर खर्चित रहा।	यह वास्तविकता है, कोई टिप्पणी नहीं।
ई.	प्रबंधन का पत्र पृथक लेखा रिपोर्ट में जिन बातों का अभाव है, वह अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के कुलपति के ध्यान में लायी गयी हैं। शिकायत समाधान के लिए एक प्रबंधन पत्र अलग से लिखा गया है।	प्रबंधन के उत्तर पत्र सं. ईएफएलयू/वीसीओ/तिथि द्वारा बताये गये हैं।
V.	पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में परीक्षण के अनुसार, तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय खाते, प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाते इस रिपोर्ट में खाता पुस्तकों के साथ समझौते के अंतर्गत रखे गये हैं।	
VI.	हमारे पक्ष में और हमें उपलब्ध उत्तम सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टिकरणों में, इन वित्तीय बयानों को लेखा नितियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ मढ़ा जाए तथा जहाँ तक उपर्युक्त एवं लेखा रिपोर्ट संलग्निका में उल्लेखित महत्वपूर्ण मुद्दों का संबंध है, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, स्वच्छ एवं वास्तविक दृष्टि प्रदान की गयी है।	
ए.	अब तक तुलनपत्र का संबंध है, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के 31 मार्च 2017 तक के मामलों को शामिल किया गया है।	
बी.	अब तक संबंधित तिथि पर समाप्त वर्ष के घाटायुक्त आय एवं व्यय खातों का भासला है।	

(५३८)

वित्त अधिकारी

Finance Officer
The English and Foreign Languages University
Hyderabad-500 007.

संलग्निका के उत्तर

1.	<p>आंतरिक लेखा की पर्याप्तता: आंतरिक लेखा शास्त्र में एक सेवानिवृत्त अधिकारी एवं एक सेवशन अधिकारी कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय के सभी विभागों पर आधारित वर्ष 2013-14 के लेन देन की जानकारी को शामिल करते हुए वर्ष 2014-15 में आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया है और वर्ष 2013-14 का आंतरिक लेखा परीक्षण पूरा बताया गया है और संबंधित विभागों को आंतरिक लेखा रिपोर्ट भेजी गयी है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लेने देने के आंतरिक लेखा परीक्षण की योजना पर कार्य जारी है इसका मसौदा अनुमति के लिए संबंधित प्राधिकरण को सौंपा गया है। विश्वविद्यालय और उसके लखनऊ और शिलांग दो कैंपस का चरणबद्ध तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षण व समय समय पर निर्धारित समयावधि में खातों की जाँच के लिए आंतरिक लेखा प्रबंधन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। हालांकि पूर्व का लेखा रिपोर्ट में निर्दिष्ट किये जाने के बावजूद विश्वविद्यालय ने लेखा एवं खाता पुस्तकों का आंतरिक रखरखाव नहीं है, आंतरिक लेखा में किसी प्रकार की त्रूटियाँ नहीं हैं।</p>	<p>विश्वविद्यालय आंतरिक लेखा अधिकारी की शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया में है। आंतरिक लेखा की पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए क़दम उठाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार के सामान्य नियमों कड़ाई से पालन करते हुए खातों और उसके नियम मसौदा तैयार करने के लिए काम जारी है।</p>
2.	<p>आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता : आंतरिक लेखा नियंत्रण पद्धति अपर्याप्त है :</p> <p>विश्वविद्यालय और उसके लखनऊ और शिलांग दो कैंपस का चरणबद्ध तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षण व समय समय पर निर्धारित समयावधि में खातों की जाँच के लिए आंतरिक लेखा प्रबंधन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है,</p> <p>i. पुस्तकालय के किताबों की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है।</p> <p>ii. स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है।</p> <p>iv. भूमि से संबंधित जाँच व्यवस्थित रूप से नहीं बतायी गयी है।</p> <p>v. मरम्मत न करने लायक/बेकार/अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक और फर्मीचर के सामान को मानक 10 की अनिवार्यता के अनुसार वित्तीय बयानों में अलग से नहीं दर्शाया गया है।</p>	<p>i. इफ्टू के सभी विभागों का आंतरिक लेखा वर्ष 2013-14 तक कर लिया गया है और 2015-16 का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।</p> <p>ii. कृपया क्रम संख्या 3 निम्न की टिप्पणियों पर देखा जाए।</p>
3.	<p>स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच पद्धति : वर्ष 2016-17 के लिए स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच पूरी नहीं की गयी है बताया गया है कि इसका कार्य जारी है। विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत जांच के लिए समितियों का गठन नहीं किया गया है। साथ ही सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 215 के अनुसार, पुस्तकालय की किताबों को वार्षिक खातों में नहीं दर्शाया गया और न उनकी व्यक्तिगत जांच</p>	<p>लेखा परीक्षकों को बताया जाता है कि अधिकतर परिसंपत्तियाँ फर्मीचर के रूप में जैसे बिस्तर, कुर्सियाँ, रेफ्रीजेरेटर, एसी, टेबल, लायब्ररी पुस्तकें आदि अर्जित की गयी हैं। उनका रखरखाव विभाग द्वारा जीएफआर की पद्धति के अनुसार किया गया है और उनकी व्यक्तिगत जांच के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण है। परिसंपत्तियों की वर्ष 201-17 की व्यक्तिगत जांच प्रक्रिया जारी है।</p>

	<p>करताया गयी है। विश्वविद्यालय ने संबंधित विभागों की वस्तुओं को उनकी उपलब्धता के अनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में दर्ज किया है, हालांकि इसके बारे में पूर्व सेखा रिपोर्टों में बताया गया था।</p>	<p>लेखा व्यवहार की प्रक्रिया के अनुसार, भवन, फर्नीचर, वाहन आदि को खरीदने के बाद टेकेदार/वितरक द्वारा बिल दाखिल करने के बाद पूंजीकृत किया जाता है और पूंजीकृत मूल्य संबंधित स्थिर परिसंपत्तियों के खाते में दर्ज किया जाता है और तुलन घत्र में दर्शाया जाता है।</p> <p>इसलिए विश्वविद्यालय स्थिर परिसंपत्तियों का विभाग के अनुसार रजिस्टर नहीं रखता है और समैक्षण और केंद्रीयकृत परिसंपत्तियाँ अलग से पंजीकृत नहीं की जाती हैं। इनकी विस्तृत जानकारी ग्रास बुक, नेट बुक और स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास वार्षिक खातों की अनुसूची 4 में दर्ज है। यह निरंतर प्रक्रिया है।</p>
4.	<p>वस्तुसूची के व्यक्तिगत जाँच की पढ़ति : वर्ष 2016-17 के लिए वस्तुसूची की वार्षिक व्यक्तिगत जाँच की नहीं की गयी है और बताया गया है कि यह कार्य जारी है।</p>	<p>कृपया अनुच्छेद 3 की प्रतिक्रिया दर्खें।</p>
5.	<p>कानूनी देयता के भुगतान में नियमक : कानूनी देय नियमित रूप से अदा किये जा चुके हैं।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं</p>

८११२१२१

विज्ञान अधिकारी

Finance Officer
The English and Foreign Languages University
Hyderabad-500 007.

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

हैदराबाद - 500007

वार्षिक लेखा 2016-17


अनुसूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय खाता	2
3	आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाता	3
4	अनुसूचि	4 - 41
5	भविष्य निधि स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट	42 - 43
6	भविष्य निधि तुलन पत्र	44
7	भविष्य निधि आय एवं व्यय खाता	45
8	भविष्य निधि आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाता	46
9	भविष्य निधि लेखा पर टिप्पणी	47
10	एनपीएस तुलन पत्र	48
11	एनपीएस आय एवं व्यय खाता	49
12	एनपीएस आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाता	50
13	एनपीएस लेखा पर टिप्पणी	51

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

₹ में

निधियों का स्रोत	अनुसूचियाँ	2016-17	2015-16
संग्रहित/ पूँजी निधि	1	482,295,031	471,637,659
निर्देशित / निर्धारित / धर्मस्व निधियाँ	2	213,109,044	212,749,982
चालू देयताएँ एवं प्रावधान	3	1,660,036,933	1,786,696,378
कुल		2,355,441,008	2,471,084,019
निधियों के आवेदन			
स्थिर परिसंपत्तियाँ	4		
मूर्त परिसंपत्तियाँ		715,514,094	657,108,909
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		1,087,121	445,026
चालू पूँजीगत कार्य		75,280,000	207,199,756
स्थिर परिसंपत्तियों का परिशोधन		-	-
निर्धारित / धर्मस्व निधियों पर निवेश	5		
दीर्घ अवधि			-
लघू अवधि		2,484,076	2,484,076
अन्य निवेश	6	-	-
चालू परिसंपत्तियाँ	7	1,307,499,770	1,252,290,218
ऋण, अधिग्रहण एवं जपा	8	253,575,947	351,556,034
कुल		2,355,441,008	2,471,084,019
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	25		


 Finance Officer
 The English and Foreign Languages University
 Hyderabad-500 007.

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

₹ मे

आय	अनुसूचियाँ	2016-17	2015-16
आय			
शैक्षणिक आवर्तियाँ	9	15,836,408	8,342,630
अनुदान एवं दान	10	646,224,975	643,753,075
निवेश से आय	11	-	-
शैक्षणिक आवर्तियाँ पूर्व	12	49,814,133	58,791,705
अन्य आय	13	7,896,084	6,926,614
पूर्व आवधि आय	14	6,239,215	4,662,373
कुल (ए)		726,010,814	722,476,397
व्यय			
कर्मचारी भुगतान एवं लाभ	15	636,340,285	1,237,057,109
शैक्षणिक व्यय	16	9,298,282	6,652,467
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	78,610,721	84,205,316
परिवहन व्यय	18	2,377,338	2,087,745
मरम्मत एवं रखरखाव	19	21,127,836	3,669,659
वित मूल्य	20	22,224	59,661
अन्य व्यय	21	17,517,833	20,023,080
पूर्व आवधि व्यय	22	9,106,207	6,785,372
मूल्य ह्रास	23	172,542,158	194,310,403
कुल (बी)		946,942,883	1,554,850,812
व्यय पर अधिक आय का अतिरिक्त शेष (ए-बी)		-220,932,069	-832,374,415
निर्धारित निधियों से स्तानांतरित			
भवन निधियाँ			
अन्य (विशेष)			
अतिरिक्त शेष/ (घाटा) पूंजी निधि को लाया गया			

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

आक्समिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियाँ

24

25

U 5/2 219
Finance Officer
The English and Foreign Languages University
Hyderabad-500 007.

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाता

रु. लाख में

आवृत्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I प्रारंभिक शेष	12,522.90	11,847.81	I व्यव	6,850.63	6,520.71
ए) नगद शेष	12.83	1.73	ए) संस्थागत व्यव		-
बी) बैंक में जमा			बी) शैक्षणिक व्यव	81.00	49.09
I) चालू खातों में	189.77	283.07	सी) प्रशासनिक व्यव	632.69	582.94
II) बचत खातों में	1,305.81	8,560.02	डी) परिवहन व्यव	18.84	14.27
III) जमा खातों में	11,014.49	3,002.99	ई) मरम्मत एवं खररखाव	58.83	23.96
			एफ) पूर्व आवधि व्यव	4.06	49.93
II प्राप्त अनुदान	8,091.87	6,357.47	जी) वेतन एवं अन्य कर्मचारी लाभ	5,890.82	5,610.39
ए) भारत सरकार से		-	एच) अन्य व्यव	164.39	190.13
बी) राज्य सरकार से		-	II चालू देवताएं	8,520.48	1,074.04
सी) यूजीसी से					
I) योजना	1,690.00	536.00	III स्थिर परिसंपत्तियों पर व्य एवं	287.41	544.72
ii) ऐरो योजना	6,401.87	5,821.47	ए) स्थिर परिसंपत्तियाँ	202.61	279.72
III) शैक्षणिक आवृत्तियाँ	158.60	83.40	बी) पूँजीगत जारी कार्य	84.80	265.00
IV निर्धारित/धर्मस्व निधियों से		112.19			
	8,036.26	848.97	IV चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	679.89	-
V प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं से आवृत्तियाँ					
VI प्रायोजित फेलोशिप/छाव्रवृत्तियों से आवृत्तियाँ		176.97			
	30.70	18.47	V अन्य भुगतान	0.22	0.51
VII निवेश पर आय					
ए) निर्धारित/धर्मस्व निधियाँ	30.70	18.47	VI धर्मस्व निधिया	19.80	
बी) अन्य निवेश			VII समाप्त शेष	13,074.99	12,522.90
VIII व्याज प्राप्त किया गया	477.55	595.50	ए) नगद शेष	0.37	12.83
ए) बैंक जमा से	435.42	563.88	बी) बैंक में जमा		
बी) ऋण एवं अग्रिम	0.74	1.73	I) चालू खातों में	275.45	224.93
सी) बैंक खातों में बचत	41.39	30.49	II) जमा खातों में	1,067.60	1,270.65
IX चालू परिसंपत्तियाँ		40.38	III) सावधि जमा में	11,731.57	11,014.49
X अन्य आय(पूर्वावधि आय सहित)	115.54	78.76			
XI ऋण अग्रिम एवं इंटर यूनिट स्थानांतरण		502.96			
XII अन्य आय (अप्रत्यक्ष आय)					
कुल	29,433.42	20,662.88	कुल	29,433.42	20,662.88

GA 5/25 2/19

Finance Officer
The English and Foreign Languages University
Hyderabad-500 007.

अनुसूची 1 - कोष / पूँजी निधियाँ

₹ में

विवरण		2016-17	2015-16
	बर्बादी में शेष	471,637,659	1,010,989,460
योग:	कोष एवं पूँजी निधि से योगदान		-
योग:	पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग में लायी गयी यूजीसी, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारी अनुदान	521,964,692	293,022,614
योग:	निर्देशित निधियों से खरीदी गयी परिसंपत्तियाँ	2,310,283	
योग:	परियोजनाओं के अलावा खरीदी गयी परिसंपत्तियाँ	337,080	
योग:	दान एवं भेट से प्राप्त परिसंपत्तियाँ		
योग:	अन्य योग		
योग:	आय एवं व्यय खाते स्थानांतरित व्यय पर अधिक आय		-
	कुल	996,249,714	1,304,012,074
कटौती:	आय एवं व्यय खाते स्थानांतरित घाटा (कटौति)	220,932,069	832,374,415
	पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग पूर्व वर्ष अनुदान प्रारंभिक शेष स्थानांतरित	293,022,614	
	वर्ष के अंत में शेष	482,295,031	471,637,659

अनुसूची 2 - निर्देशित / निर्धारित / धर्मस्व निधिया

₹ मे

Particulars	निधियों का विवरण		कुल	
	धर्मस्व निधियाँ	अनौपचारिक निधियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ए.				
ए) निधियों का प्रारंभिक शेष	3,055,384	209,694,598	212,749,982	204,709,932
बी) वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	3,281,913	3,281,913	41,151
सी) निधियों के निवेश से प्राप्त आय	29,514	2,548,847	2,578,361	14,870,808
डी) निवेश/अग्रिम पर अंजित ब्याज	734,803	11,946,792	12,681,595	5,826,634
ई) बचत दैक खातों पर ब्याज		492,313	492,313	463,672
एफ) अन्य जोड़ (विशेष प्रकार)			-	5,486,841
कुल (ए) समापन शेष	3,819,701	227,964,463	231,784,164	231,399,038
बी.				
निधियों के उद्देश्य से किया गया उपयोग			-	-
II) पूँजीगत व्यय		2,310,283	2,310,283	-
III) राजस्व व्यय	-	10,694,229	10,694,229	13,317,914
IV) उपचित किंतु अप्राप्य विपर्य ब्याज	571,308	5,099,300	5,670,608	5,331,142
कुल (बी)	571,308	18,103,812	18,675,120	18,649,056
वर्षात में समापन शेष (ए-बी)	3,248,393	209,860,651	213,109,044	212,749,982
द्वारा प्रस्तुत				
व्रगद एवं दैक शेष		6,149,048		
निवेश	2,484,076	147,306,671		
उपचित किंतु अप्राप्य ब्याज	764,317	14,987,952		
कुल	3,248,393	168,443,671		

धर्मस्व निधि

अनुसूची 2A

क्र. सं.	धर्मस्व का नाम	प्रारंभिक शेष				वर्ष के दौरान चोगा				कुल				वर्ष के दौरान उद्देश्य पर खर्च				समापन शेष			
		2	3	4	5	6	7	8	आकालित व्याज (3+4)	धर्मस्व (3+6)	आकालित व्याज (3+4)	कुल (3+4)	आकालित व्याज	धर्मस्व	वर्ष के दौरान उद्देश्य पर खर्च	आकालित व्याज (9-10)	कुल (11+12)				
1																					
1	के. मुद्रणाण	138942	-4112	134830		49444	10917	138942	11749	6525	0	138942	5224	144166							
2	पैस गुणवत्ता	229872	-191	229681		8422	18597	229872	26828	11115	0	229872	15713	245585							
3	दा. रेही प्रयोगकल सेवकार	714059	-130431	583628		73735		714059	-56696	27886	0	714059	-84582	629477							
4	धर्मस्व निधियों पर उपर्युक्त व्याज	249390	-249390	0				249390	-249390			249390	-249390	0	249390	-249390	0	249390	-249390	0	249390
5	पुण्यता	1643162	468	1643630		589130		1643162	589598	503630	0	1643162	85968	1729130							
6	एस. कृष्ण सत्त्वा	194738	9772	204510		25837		194738	35609	9772	0	194738	25837	220575							
7	अम. ए. घोष	213917	10734	224651		28382		213917	39116	10734	0	213917	28382	242299							
8	एस. कृष्ण मृत्ति	23325	1170	24495		3095		23325	4265	1170	0	23325	3095	26420							
9	एस. कृष्ण गोप्ता	9483	476	9959		1258		9483	1734	476	0	9483	1258	10741							
10		0	0	0				0	0		0	0	0	0							
		3416888	-361504	3055384	0	734803	29514	3416888	402813	571308	0	3416888	-168495	3248393							

₹ में

अनुपूर्वी -2A
अनोपचारिक निधि

क्र. सं.	धर्यक्षत का नाम	प्रारंभिक रोप				वर्ष के दोहरा योग				कुल				वर्ष के दोहरा उत्तर्यां पर खर्च				समाप्त शेष				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(3+4)	कुल	वर्ष के दोहरा उत्तर्यां पर खर्च	कुल(11+12)	समाप्त शेष				
1	शैक्षणिक अदान खना	8726945	814470	9541415	20500	422040	154904	8747445	1391414	33973	613675	8747445	743766	9491211	आकर्तिक	आकर्तिक व्याज (4+7)	आकर्तिक व्याज	आकर्तिक आकर्तिक व्याज				
2	विकास निधि	93409061	7822636	101231697		7881109	11919	93409061	15715664	1295474	66643	93409061	14353547	107762608	उपायित	उपायित	उपायित	उपायित				
3	कर्मचारी कल्याण निधि	16858469	1507327	18365796	397961	622605	1301485	123006	17256430	3554423	719027	341545	17256430	2493851	19750281							
4	विदेशी छात्र कल्याण निधि	624501	3897	628398	68650		3159	693151	7056	406403	286748	7056										
5	केंद्रीय सह. निधि	9895054	1041259	10936313	152871	298973	634330	61838	10047925	2036400	505529	4333107	5714818	1530871	7245689							
6	अन्य निधि	10320520	2023961	12344481		927877	155203	23715	10320520	3130756	1105994	3094635	7225885	2024762	9250647							
7	प्रकाशन निधि	8322304	430580	8752884		398573	208754	22531	8322304	1060418	157089	11940	8322304	891389	9213693							
8	आरक्षित निधि	24152040	0	24152040					24152040	0			24152040	0	24152040	0	24152040	0	24152040	0	24152040	
9	शिक्षक कल्याण निधि	16150755	2438068	18588823	20840	1393511	208734	29553	16171595	4069866	1282214	88418	16171595	2699234	18870829							
10	छात्र कल्याण निधि	5047473	105278	5152751	2621091	2104	40361	61688	7668564	209431		4048146	3620418	209431	3829849							
		193507122	16187476	20964598	3281913	11946792	2548847	492313	196789035	31175428	5099300	13004512	184906744	24953907	209860651							

अनुसूची 3 - चालू देयताएं एवं प्रावधान

₹ में

	2016-17	2015-16
ए. चालू देयताएं		
1. स्टाफ की जमा	167,407	19,467
2. विद्यार्थी की जमा	3,418,356	2,835,664
3. विविध लेनदार		
ए) सामान एवं सेवाएं	41,785,855	18,666,735
बी) अन्य	5,138,379	6,031,733
4. अन्य जमा (ईएमडी, सुरक्षा जमा सहित)	12,694,751	12,011,267
5. कानूनी देयताएं (जीपीएफ, टीडीएस, डब्ल्यूसी टैक्स, सीपीएफ, जीआईएश, एनपीसीएस)		
ए) बकाया		-
बी) अन्य	20,744,180	17,655,303
6. अन्य जारी देयताएं		
ए) वेतन	20,643,762	17,323,717
बी) प्रायोजित परियोनजनाओं के प्रति आवर्तियाँ	312,800,624	265,234,885
सी) प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्तियाँ के प्रति आवर्तियाँ	-	-
डी) अनुपयोगी अनुदान	460,029,123	560,579,654
ई) अग्रिम अनुदान		
एफ) अन्य निधियाँ	30,653,000	
जी) अन्य देयताएं	89,264,692	248,273,938
	कुल (ए)	997,340,129
		1,148,632,363
बी. प्रावधान		
1. करों के लिए	-	-
2. प्रेच्युटी	71,140,279	76,760,045
3. सेवानिवृत्ति/पेन्शन	405,275,540	373,562,004
4. संचित अवकाश नकदीकरण	186,280,985	187,741,963
5. व्यापार वारंटियाँ/देय		-
6. अन्य (विशेष))		
	कुल (बी)	662,696,804
		638,064,012
	कुल (ए + बी)	1,660,036,933
		1,786,696,375

अनुमती ३ ए प्रायोजित परियोजना

₹ में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान आवृत्तियाँ प्राप्तियाँ			वर्ष के दौरान खर्च			समापन रेष्ट	
		२	३	४	५	६	७	८	९			
1	परमर्श निधि है,(प्राकृतिक आय)	12209893	8742039	उदार	जमा	कुल	उदार	जमा	उदार	जमा	जमा	
2	आईपीटी निवंद	105659696	64936189		17095885			3641395	17310537			
3	रावती निधि	56855291	5323539		62178830			28016473	142579412			
4	टिस	1498	69		1567			11706269	50472561			
5	एनडब्ल्यूएसएपी	744459	34806		779265			0	779265			
6	आईसीएसएआर	2427639	1845617		4273256			2408952	1864304			
7	एप्सईपी	6876038	537134		7413172			2918	7410254			
8	फोर्ट लाउड्रेग	1279208	131016		1410224			561	1409663			
9	एचवीए	23887328	2495681		26383009			1867094	24515915			
10	आईसीसीआर	25103474	5166397		30269871			107485	30162386			
11	ज्ञानी	1185749	4823315		1668064			2342	1665722			
12	सीईएलटी	1757552	0		1757552			300298	1457254			
13	झोरको	9973984	6311682		16285666			756519	15529147			
14	प्रातीष इ.	8864030	0		8864030			0	8864030			
15	यूजीसी की जारी परियोजनाएं	5075136	58555824		10930960			3780824	7150136			
16	एसएमीएसएल	1134649	46427		1181076			118872	1062204			
17	एआईएसटीए	236800	0		236800			236800	0			
18	अरबी अभ्यान	1423661	0		1423661			1423661	0			
19	सीईएलटी अप्रिका	123640	0		123640			0	123640			
20	आईसोपीआर	388236	0		388236			388236	0			
21	एसएसए परियोजना तेलांगा सरकार	26924	0		26924			0	26924			
23	यूनिसेफ	0	1101044		1101044			685341	415703			
					0			0	55444040	312800624	0	
	Total	265234885	0	103009779	0	366244664	0					

अनुसूची 3 बी प्रायोजित छात्रवृत्ति और फेलोशिप

₹ में

क्र.सं.	प्रायोजक का नाम	वर्तमान प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान लेन देन		वर्तमान समापन शेष	
		3	4	5	6	7	8
		सीआर	डीआर	सीआर	डीआर	सीआर	डीआर
1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		20191604	6360218	14962355		28793741
2	मंत्रालय						
3	अन्य (विशेष व्यक्तिगत)						
	कुल	0	20191604	6360218	14962355	0	28793741

अनुसूची 3 सी यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुपयोगी अनुदान

₹ में

	2016-17	2015-16
ए. योजना अनुदान - भारत सरकार		
शेष, बी/एफ		
योग : वर्ष के दौरान आवृत्तियाँ		
कुल(ए)	0	0
कटौती : वापसी		
कटौती : राजस्व व्यय के लिए उपयोग		
कटौती : पूँजी व्यय के लिए उपयोग		
कुल(बी)	0	0
अनुपयोगी आगे लाये गये (ए-बी)	0	0
बी. यूजीसी अनुदान : योजना		
शेष, बी/एफ	397753948	670819840
योग : वर्ष के दौरान आवृत्तियाँ	169000000	53600000
समायोजन भुगतान	103462925	91911252
कुल(सी)	670216873	816331092
कटौती : वापसी	94582451	188785166
कटौती : राजस्व व्यय के लिए उपयोग	258196783	229791978
कटौती : पूँजी व्यय के लिए उपयोग	71415736	
कुल(डी)	424194970	418577144
अनुपयोगी आगे लाये गये (सी-डी)	246021903	397753948
सी. यूजीसी अनुदान गैर योजना		
शेष, बी/एफ	162825706	179648881
योग : वर्ष के दौरान आवृत्तियाँ	609268000	511954000
समायोजन आवृत्तियाँ	141608682	166471729
कुल(ई)	913702388	858074610
कटौती : वापसी		
कटौती : राजस्व व्यय के लिए उपयोग	699695168	695248904
कटौती : पूँजी व्यय के लिए उपयोग		
कुल(एफ)	699695168	695248904
अनुपयोगी आगे लाये गये (ई-एफ)	214007220	162825706
राज्य सरकार से अनुदान		
शेष, बी/एफ	0	0
योग : वर्ष के दौरान आवृत्तियाँ	0	0
कुल(जी)	0	0
कटौती : राजस्व व्यय के लिए उपयोग	0	0
कटौती : पूँजी व्यय के लिए उपयोग	0	0
कुल (एच)	0	0
अनुपयोगी आगे लाये गये (जी-एच)	0	0
कुल (ए+बी+सी+डी)	460029123	560579654

अनुसूची 4 – वर्ष 2016-17 के लिए

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास			शुद्ध ब्लॉक	
	वर्षांभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान घटाया गया	वर्षांभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान घटाया गया	वर्ष के दौरान मूल्य/मूल्यांकन	जोड़ा गया	वर्ष के दौरान घटाया गया	वर्षांभ में मूल्य/मूल्यांकन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ए) निःशुल्क प्राप्त की गयी										
(बी) लैंड पर प्राप्त की गयी										
II. भवन:										
ए) निःशुल्क प्राप्त किया गया										
(बी) लैंड पर प्राप्त किया गया	901533690	209969620	0	1111503310	380124962	141109305	521234267	590269043	521408728	
सी) निजि/फ्लैट/परिसर	0				0			0	0	
डी) बालाई इमारत शैक्षणिक संस्थान की नहीं है	0				0			0	0	
III। इकाइयाँ, मरिनरी एवं उपकरण	159239625	3014041	162253666	105482460	8425711	113908171	48345495	533757165		
IV। बाहन 15%	6566828	2310283	8871111	4339462	506476	4845938	4025173	2221366		
V। कर्यालय उपकरण 15%	54683059	1338904	56021963	32653786	3454829	36108615	19913348	2202973		
VI। कंधारा/बाह्य उपकरण 60%	100994037	3319643	104313680	97001075	3983872	100984947	3328733	3992962		
VII। फर्नीचर एवं फिक्सचर - 10%	67149150	4073053	71222203	24963911	4564921	29528832	41693371	42185239		
VIII। इलेक्ट्रिनिक स्थापना 80%	44304683	1846119	46150802	41528747	3614974	45143721	1007081	2775936		
IX। पुस्तकालय किताबें 60%	115783315	3382213	19191528	109574884	5517433	115092317	4079211	6214431		
X। खेल उपकरण - 15%	399465	10531	409996	214028	29396	243424	166572	183437		
XI। कंठबड़ेता एवं जलापूर्ति -10%	3051683	73000	3124683	713311	241137	954448	2170235	2338372.		
XII। दृश्य-अव्यय उपकरण			606865	0	91030	91030	515835			
ए) कुल मूल परिसंपत्तियाँ	1453705535	229944272	0	1683649807	796596626	171539084	0	968135710	715514097	657108909
(बी) अपूर्त परिसंपत्तियाँ	1657963	1645168	3303131	1212937	1003072	2216009	1087122	445026		
(सी) जारी पूँजीगत कार्य	207199756	26479573	158399329	75280000	0	0	75280000	207199756		
(डी) अमर्त परिसंपत्तियाँ	123555977		123555977	123555980	0	123555980	0	0	0	
कुल (ए+ बी +सी+डी)	1786119231	258069013	158399329	1885788915	921365543	172542156	0	1093907699	791881219	864753691

प्राप्त क्रमांक

वर्गीकृत प्रूप

वर्गीकृत में प्रूप

	वर्गीकृत प्रूप										वर्गीकृत में प्रूप					
	कुल	चोजना	नियोनेप्स	एसामी	सिंहासन	तखलक	चोजना	चोजना एवं धारोंचारी	शिवांगी	तखलक	इष्टप्रकाशी	तारीख	कुल	चोजना / अनुभवी	वर्गीकृत में प्रूप/मुद्रांकन	
I								संपूर्ण चर्चे	अर्द्ध चर्चे	संपूर्ण चर्चे	अर्द्ध चर्चे	संपूर्ण चर्चे	अर्द्ध चर्चे	संपूर्ण चर्चे	अर्द्ध चर्चे	
I.1	पूर्ण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2) नियुक्त प्राप्त की अपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II) दीज एवं प्राप्त की अपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III) भवान:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV) नियुक्त प्राप्त की अपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V) दीज एवं प्राप्त की अपी	521408728	444931518	0	0	76477210	0	22884674	184370738		992612	1721596	0	0	0	209969670	
VI) नियुक्त प्राप्त की अपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731378348	
VII) नियुक्त प्राप्त की अपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII) नियुक्त प्राप्त की अपी	53757165	48360590	267852	3488533	1104327	535863	1477333	54808	337080	0	1144820	0	0	0	3014041	
IX) इकाईयाँ - प्राप्तीय अवधारणा 15%	2221366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56771206	
X) आन 15%	22029273	20980121	383691	309276	288630	67555	651413	672001	0	0	15490	0	0	0	4531649	
XI) कारबाह अवधारणा 15%	6214431	3017254	0	0	2215129	982048	885761	21599	0	0	1616906	0	0	0	23368177	
XII) कारबाह अवधारणा 65%	3992982	3325357	109699	378412	36296	117662	1214355	897438	0	759650	0	0	0	0	7312605	
XIII) कारबाह अवधारणा 10%	42185238	30397291	355690	437189	10360255	734813	1368453	227500	0	1486432	232400	0	0	0	46258291	
XIV) होकिन्स इथाना 80%	2775936	2500141	7776	9324	346454	2962	1140176	59591	0	499265	138498	0	0	0	4622055	
XV) कुलतात्प्रवाह 60%	6214431	3017254	0	0	2215129	982048	885761	21599	0	0	177698	780249	0	0	9596644	
XVI) ड्रेट अकाल - 15%	185437	175398	0	0	0	10039	0	0	0	0	0	10331	0	0	195963	
XVII) टाकरेत अवधारणा 10%	2338372	2338372	0	0	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	2411372	
XVIII) इष्टप्रकाशण	0														606865	
XIX) इष्टप्रकाशण	657108908	557947408	1124708	4622734	90828301	2450942	29695165	186303675	337080	0	5370355	3337314	77698	2005837	606865	
XX) अपी फीसर्टार्च 50%	445024	397360	9996	0	3037	33411	785428	859740		0				1645168	2090192	
XXI) जारी टूटीला कर्म	20719976	140399756	0	0	66800000	0	17999573							26479573	158399329	
XXII) फीसर्टार्च का परिपुर्तिलगा	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	
	864753658	698744524	1134704	4622734	157631338	2484333	48480166	187163415	337080	0	13850355	32337314	77698	2005837	606865	158399329

अनुसूची 4 (3) – वर्ष 2016-17 के तिए विवरण

विवरण										31.03.2016 को शुद्ध बताक				31.03.2017 को शुद्ध बताक			
1	कुल	शेजता	एनपीएस	एसपी	शिलांग	लाखलक	इमप्रेस्ट्रारी	कुल	शेजता	एनपीएस	एसपी	शिलांग	लाखलक	इमप्रेस्ट्रारी			
I भूमि								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II निःशुल्क प्राप्त की गयी वो) लीज़ पर प्राप्त की गयी								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III भूमि:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV निःशुल्क प्राप्त किया गया वो) लीज़ पर प्राप्त किया गया	521403728	44931518			76477210			590269043	518910687	0	0	71358356	0	0	0	0	0
V निःशुल्क प्राप्त किया गया हो) बालादृ इसका शैक्षणिक संबंधन की नहीं है	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI इकाइयाँ, मीलिनी एवं उपकरण 15%	53757165	48360590	267852	3488533	1104327	535863	0	48345495	42412930	227674	3251771	1997636	425484	0	0	0	0
IV बाह्य 15%	2221366	2221366	0	0	0	0	0	4025173	1888161	0	0	0	0	0	0	0	2137012
V कार्यात्मक राशिरण 15%	22029273	20980121	383691	309276	288630	67555	0	19913348	19008402	326138	262385	258501	57422	0	0	0	0
VI कंपनीटूर/ बाह्य उपकरण 60%	3992962	3325357	109699	378412	36296	117662	25536	3328733	2444092	43880	151365	318378	360804	10214	0	0	0
VII फर्मचर एवं प्रिवेटचर - 10%	42185738	30297291	355690	437189	10360255	734813	0	41693370	28715295	320121	393470	10882798	1381686	0	0	0	0
VIII हलेक्ट्रिकल स्थापना 80%	2775936	2300141	7776	93224	346454	2962	109279	1007081	723817	1555	1865	252243	5745	21856	0	0	0
IX युस्कलार्ट वितरण 60%	6214431	3017254	0	0	2215129	982048	0	4079211	1576325	0	0	0	1532814	970072	0	0	0
XI खेत उपकरण - 15%	185437	175398	0	0	0	10039	0	166572	149088	0	0	0	0	17484	0	0	0
XII ट्रॉबेल एवं जलपूति - 10%	2338372	2338372	0	0	0	0	0	2170235	2170235	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV दृश्य-श्रृंखला उपकरण	0							0	515835	0				515835			
557108908	557947408	11247083	4622734	90828301	2450942	134815	715514096	617999032	919368	4061356	86660726	3248697	547905	2137012			
II अमृत परिसंकाठी 60%	445024	397360	9996	0	3037	33411	1220	1087120	1068055	3998	0	1215	13364	488	0	0	0
III जारी पूँजीता कार्ड	207199756	140399756	0	0	66800000	0	0	75280000	0	0	0	75280000	0	0	0	0	0
IV परिसंकाठी का परिशुद्धिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (A+B+C+D)	864753688	698744524	1134704	4622734	157631338	2484353	136035	791881246	619067087	923366	4061356	161881941	3262061	548393	2137012		

अनुसूची 5- निर्धारित/ धर्मस्व निधियों द्वारा निवेश

₹ में

	2016-17	2015-16
1. केंद्र सरकार में प्रतिभूतियाँ	-	-
2. राज्य सरकार में	-	-
3. अन्य मान्यताप्राप्त प्रतिभूतियाँ	-	-
4. अंश	-	-
5. डिबेंचर्स एवं बाँड	-	-
6. बैंकों में सावधि जमा	2,484,076	2,484,076
7. अन्य (विशेष)		-
कुल	2,484,076	2,484,076

अनुसूची 5 ए - निर्धारित/ धर्मस्व निधियों द्वारा निवेश (निधि आधारित)

क्र.सं.	निधियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	डॉ. रेहु मेमोरियल लेक्चर निधि एफडीआर	555742	555742
2	गुणशेखर धर्मस्व एफडीआर	218566	218566
3	के. सुब्रमण्यन धर्मस्व निधि एफडीआर	128305	128305
4	मुतेन्ना धर्मस्व एफडीआर	1140000	1140000
5	एन. कृष्ण मूर्ति धर्मस्व एफडीआर	23325	23325
6	एन. कृष्णा स्वामि धर्मस्व एफडीआर	194738	194738
7	आर. एन. घोष धर्मस्व एफडीआर	213917	213917
8	एस वी पाराशार एफडीआर	9483	9483
	कुल	2484076	2484076

अनुसूची 6- निवेश अन्य

₹ में

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार में प्रतिभूतियाँ रुपये	-	
2. राज्य सरकार में	-	
3. अन्य मान्यताप्राप्त प्रतिभूतियाँ	-	
4. अंश	-	
5. डिबंगर्स एवं बाँड़	-	
6. अन्य (विशेष) कुल	-	
कुल	-	

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ

₹ में

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. स्टॉक		
ए) स्टोर एवं खाली	-	-
बी) खुले उपकरण	-	-
सी) प्रकाशन	-	-
डी. प्रयोगशाला रसायन, उपयाभोग एवं ग्लास वस्तुएं	-	-
ई) भवन सामग्री	-	-
एफ) इलेक्ट्रिक सामग्री	-	-
जी) स्टेशनरी	-	-
एच) जलापूर्ति सामग्री	-	-
2. विविध कर्जदार		
ए) छह महीने स अधिक समय के लिए लंबित कर्ज		-
बी) अन्य		-
3. शेष राशि एवं बैंक में शेष		
i) शेष नगद	36,778	82,953
ii) लेनदेन में निधियाण	-	1,200,000
iii) बैंक में शेष	-	
ए) शेड्यूल्ड बैंकों में		
- चालू खातों में	27,545,409	22,493,051
- सावधि जमा खातों में	1,173,157,206	1,101,449,283
- बचत खातों में	106,760,377	127,064,931
बी) गैर शेड्यूल्ड बैंकों में		
- सावधि जमा खातों में		-
- बचत खातों में		-
4. डाकघर बचत खाते		
कुल	1,307,499,770	1,252,290,218

i) नगद शेष		
1	एनपीएनएस में भासूली नगद	0
2	नगद शेष (नगद, मसौदा, सामान्य नगद आदि) एलके	18386
3	मार्गस्थ रोकड़ एलके	0
4	एनपी नगर-एसएच	16782
5	एस डब्लू एफ कैश एस एच	1610
		36778
ii) बैंक शेष बचत बैंक खाते		
1.	बचत बैंक खाते	
1	एसबीएच एनआर एनएमई आईसी ईएमएचआरसी	2273316
2	एसबीएच प्राप्तियाँ 62122901608 ईएमएचआरसी	1834782
3	एसबीएच ए वू 62046306310 एनएफ	1811128
4	एसबीएच डीएफ 62046295976एनएफ	254803
5	एसबीएच ई डब्लूएफ 62046305464एनएफ	877989
6	एसबीएच एफएसडब्ल्यूएफ 62104061986एनएफ	139511
7	एसबीएच आईसीएफ 62046315428एनएफ	270860
8	एसबीएच एफएसडब्ल्यूएफ 2046316136एनएफ	291338
9	एसबीएच चीएफ 62046316056एनएफ	322226
10	एसबीएच एसडब्ल्यूएफ 62046305102एनएफ	1510062
11	एसबीएच टीडब्ल्यूएफ 62046306172 एनएफ	671131
12	एसबीएच - Basheer Hostel - 62292529288 - एनपीएनएस	5159412
13	एसबीएच एनपीएनएस 62116229767 एनपीएनएस	5288631
14	एसबीएच टैगोर इंटरनेशनल मेन्स होस्टल 62253166284 एनपीएनएस	377562
15	एसबीआई लालामुडा 32910269381 एनपीएनएस	1006620
16	एसबीएच डी सी 62122902147योजना	0
17	एसबीएच विलीन योजना 62122896802योजना	0
18	एसबीएच योजना जीडी 62122902067योजना	19559281
19	एसबीआई जमा राशि परियोजना 33010324611एसएच	913757
20	एसबीआई योजना 31858187617एसएच	1790240
21	एसबीआई आरक्षित निधि 30424386502एसएच	1664107
22	एसबीआई एसडब्ल्यूएफ 30424393869 एसएच	735007
23	एसबीएच एयूएसईपी 62180368055एस पी	31056
24	एसबीएच बीडी 62111478594एस पी	0
25	एसबीएच इमेस्को 62012190632एस पी	897159
26	एसबीएच फोर्ट फाउंडेशन 52198270156 एसपी	53656
27	एसबीएच कमज़ोर छात्रों का अध्ययन 62191001026एसपी	779265
28	एसबीएच एचबीए 52198270156 एसपी	1257896
29	एसबीएच आईपीसीआर 62122901438 एसपी	2037547
30	एसबीएच आईसीसीआर खाता संख्या 62284221333 एसपी	1836410
31	एसबीएच आंतरिक आय बचत खाता संख्या 62122901303 एसपी	4125442
32	एसबीएच आईटीबी बचत खाता संख्या 62216583848 एसपी	8312036
33	एसबीएच रेलो परियोजना-2 - 62116127798 एसपी	122686
34	एसबीएच रेलो परियोजना 1 - 62294650304 - एसपी	719238
35	एसबीएच सेप ईएसएल अध्ययन 62275956936एसपी	1023593
36	एसबीएच टिस्स परियोजना अध्ययन 62326709573 एसपी	1567
37	एसबीएच ओबोसी 62113104525एसआरटी	0
38	एसबीएच 62128093014 एसआरटी	38811063
		106760377
II) चालू खाते		27545409
III) शेड्यूल बैंकों में साधारण जमा		1173157206
	कुल	1307499770

अनुसूची 8 – ऋण, अग्रिम एवं जमा

₹ में

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. कर्मचारियों को अग्रिम बिना ब्याज के		
ए) वेतन	128,880	-
बी) उत्सव सी	106,875	167,925
सी) चाकित्सा अग्रिम	-	-
डी) एलटीसी	152,600	6,640
ई) अन्य (विशेष)	8,970,505	15,608,434
कुल 1	9,358,860	15,782,999
2. कर्मचारियों को दीर्घावधि अग्रिम (ब्याज आधार पर)		
ए) वाहन	2,002,412	2,068,006
बी) गृह ऋण	1,387,035	2,237,509
सी) अन्य (विशेष)	2,463,544	3,641,960
कुल 2	5,852,991	7,947,475
3. अग्रिम एवं अन्य प्राप्तियोग्य राशि नगर या इस प्रकार		
ए) पूँजी खातों पर	24,752,850	-
बी) सप्लायर को	3,986,837	9,522,757
सी) अन्य	64,000	2,767,133
कुल 3	28,803,687	12,289,890
4. पूर्व भुगतान व्यय		
ए) बीमा	59,342	7,059
बी) अन्य व्यय	162,004	603,376
कुल 4	221,346	610,435
5. जमा		
ए) टेलीफोन	1,412	1,412
बी) लोन भाड़ा		
सी) Electricity	6,268,712	6,268,712
एच) एमसीआई, यदि लागू हो		
e) CPWD Deposit		26,613,724
f) DAVP Deposit		1,065,933
f) Others Deposits		3,374,960
कुल 5	6,270,124	31,054,617
6. प्राप्त आय:		
ए) निश्चारित धर्मस्व निधियों द्वारा निवेश पर		
बी) अन्य निवेशों पर		
सी) ऋण एवं अग्रिम पर		
डी) अन्य अचेतन लांबित आय सहित..) ब्याज	67,110,502	43,796,391
कुल 6	67,110,502	43,796,391
7. अन्य प्राप्तियोग्य		
ए) प्रायोजित परियोजनाओं में ऋण शेष		
बी) फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति में ऋण शेष	28,793,741	20,191,604
सी) प्राप्ति योग्य अनुदान	65,116,998	2,267,854
डी) यूजीसी द्वारा अन्य प्राप्तियोग्य	-	-
कुल 7	93,910,739	22,459,458
8. प्राप्ति योग्य दावे	42,047,698	211,344,645
कुल 8	42,047,698	211,344,645
कुल	253,575,947	351,556,034

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विद्यार्थियों का शुल्क		
ए. शैक्षणिक		
1. ट्यूशन फी	6,051,510	6,004,773
2. प्रवेश शुल्क	82,700	-
3. पंजीकरण शुल्क		76,100
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	353,423	536,572
5. प्रयोगशाला शुल्क		-
6. कला एवं हस्तकला शुल्क		-
7. पंजीकरण शुल्क	628,085	621,379
8. पाठ्यक्रम शुल्क		-
कुल (ए)	7,115,718	7,238,824
परीक्षा		
1. प्रवेश जांच शुल्क		-
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	360,963	425,230
3. अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र शुल्क	69,870	102,482
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	7,869,666	
कुल (बी)	8,300,499	527,712
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	42,523	61,350
2. जुर्माना एवं अन्य	220,155	146,308
3. चिकित्सा शुल्क		238,320
4. परिवहन शुल्क		-
5. छात्रावास शुल्क		-
6. नेट प्रशिक्षण शुल्क	4,250	7,750
7. अन्य शुल्क	3,600	
कुल (सी)	270,528	453,728
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश आवेदनों की बिक्री से		
2. पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्रों की बिक्री	25,043	
3. प्रवेश शुल्क सहित पाठ्यक्रम विवरण की बिक्री	124,620	122,366
कुल (डी)	149,663	122,366
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियाँ		
1. कार्यशालाओं एवं कार्यक्रमों का पंजीकरण शुल्क		
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ कालेज)		
कुल (ई) सकल कुल (ए+ बी + सी + डी+ ई)	15,836,408	8,342,630

अनुसूची 10 - अनुदान/रियायतें न मोडे जाने वाले पाप्त दान)

₹ में

विवरण	योजना यूजास		कुल योजना	गैर योजना यूजीसी	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	भारत सरकार	योजना				
		विशेष योजना				
शेष बी/एफ	-	-	-	-	-	-
योग: वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया	-	46,668,534	-	46,668,534	599,556,441	646,224,975
कुल	-	46,668,534	-	46,668,534	599,556,441	646,224,975
कटौती: यूजीसी को बापसी	-		-	-		-
शेष	-	46,668,534	-	46,668,534	599,556,441	646,224,975
कटौती: पूंजीगत व्यय के लिए सूचीबद्ध ए	-					-
शेष	-	46,668,534	-	46,668,534	599,556,441	646,224,975
कटौति : राजस्व व्यय बी	-	46,668,534	-	46,668,534	599,556,441	646,224,975
शेष सी/एफ	-	-	-	-	-	-

अनुसूची 11 निवेश से अन्य आय

₹ में

विवरण	निर्धारित/ धर्मस्व निधियों		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
ए. सरकारी प्रतिभूतियों पर				
बी. डिबेंचर्स एवं बॉड				
2. सावधि जमा बर ब्याज	29,514	29,563		
3. ब्याज प्राप्त किया गया, लेकिन सावधि जमा में शामिल नहीं किया गया/ कर्मचारियों के पास जमा अग्रिम पर ब्याज	734,803	571,308		
4. बचत बैंक खातों पर जमा				
5. अन्य विशेष				
कुल	764,317	600,871	-	-
निर्धारित/ धर्मस्व निधियों को स्थानांतरित				
शेष	NIL	NIL		

अनुसूची 12 अर्जित व्याज रूपये

₹ में

Particulars	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष
	योजना	गैर योजना	कुल	
1. शेड्युल्ड बैंकों में बचत खातों पर	1,024,240	3,114,743	4,138,983	3,049,207
ऋण पर	-	-	-	-
कर्मचारी / स्टाफ	-	485,429	485,429	811,146
अन्य (टीडीआर)	38,504,766	6,684,955	45,189,721	54,931,352
अन्यप्राप्तियोग्य एन्य जमा	-	-	-	-
कुल	39,529,006	10,285,127	49,814,133	58,791,705

अनुसूची 13 – अन्य आय

₹ में

ए. भूमि एवं भवन द्वारा आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. छात्रावास के कमरों का किराया	3,636,029	4,362,487
2. लायसेन्स शुल्क		16,640
3. सभागृह/खेल मैदान / कन्वेन्शन सेंटर एवं अन्य से प्राप्त भाड़े		
4. बिजली एवं पेयजल शुल्क	1,404,095	1,392,029
5. जलापूर्ती शुल्क प्राप्त किया गया	162,309	30,725
कुल	5,202,433	5,801,881
बी. संस्थागत प्रकाशनों की बिक्री	79,898	97,867
सी. आयोजनों से प्राप्त आय		
1. वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवाल द्वारा सकल प्राप्तियाँ		105,000
कटौति: वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवाल पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
2. उत्सवों द्वारा सकल प्राप्तियाँ		
कटौति: उत्सवों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
3 शैक्षणिक यात्राओं द्वारा सकल प्राप्तियाँ		
कटौति: शैक्षणिक यात्राओं पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
4. अन्य (विशेष एवं अलग से बताए जाएंगे)		
कुल	-	105,000
डी. अन्य		
1. परामर्श दाता द्वारा आय		
2. आरटीआई शुल्क	460	1,043
3. रॉयलटी द्वारा आय	30,500	73,004
4. आवेदनों की बिक्री द्वारा आय(नियुक्तियाँ)	395,540	8,945
5. अन्य प्राप्तियाँ (निविदाएं एवं बेकार कागज की बिक्री आदि)	802,097	139,828
6. परिसंपत्तियों के विक्रय /निपटारे से प्राप्त लाभ		
ए) निजी परिसंपत्तियाँ		
बी) निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ		
7. अनुदान/ संस्थाओं, कल्याणकारी संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दान		
8. अन्य (विशेष)	1,385,156	699,046
कुल	2,613,753	921,866
कुल (ए+बी+सी+डी)	7,896,084	6,926,614

अनुसूची 14 -- पूर्व अवधि आय

₹ में

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. शैक्षणिक प्राप्तियाँ		2,647,358
2. निवेश से प्राप्त आय		
3. अर्जित ब्याज		162,838
4. अन्य आय	6,239,215	1,852,177
कुल	6,239,215	4,662,373

अनुसूची 15 – स्टाफ भुगतान एवं लाभ (संस्थागत व्यय)

₹ में

	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) वेतन एवं भुगतान		521,352,153	521,352,153	103,843,757	330,504,711	434,348,468
बी) भरो एवं बोनस	163,232	14,161,800	14,325,032	333,955	13,047,110	13,381,065
सी) भविष्य निधि को योगदान			-			-
डी) अन्य निधियों (विशेष एनपीएस) को योगदान	104,273	13,494,339	13,598,612	5,659,822	9,218,869	14,878,691
ई) स्टाफ कल्याण व्यय		1,196,362	1,196,362	33,312	801,541	834,853
एफ) सेवानिवृत्ति एवं सेवा से हटाए जाने के लाभ			-			-
i) 31.03.2016 को वास्तविक मूल्यांकन		-	-		638,064,012	638,064,012
ii) सेवानिवृत्ति एवं वर्ष के द्वारा दिये गये लाभ		60,946,162	60,946,162		106,389,427	106,389,427
जी) एलटीसी संकाय		3,132,374	3,132,374		2,706,547	2,706,547
एच) चिकित्सा संकाय		14,922,730	14,922,730	1,197,917	19,144,686	20,342,603
आई) बाल शिक्षा भत्ता		2,454,279	2,454,279	247,951	2,269,989	2,517,940
जे) पानद	4,000	4,266,248	4,270,248	251,222	2,988,553	3,239,775
k) TA/DA Expenses		107,491	107,491	29,068	324,660	353,728
के) अन्य विशेष		34,842	34,842			
कुल	271,505	636,068,780	636,340,285	111,597,004	1,125,460,105	1,237,057,109

अनुसूची 15 ए – कर्मचारी सेवा निवृत्ति एवं सेवापुक्ति लाभ

₹ में

	पेशन	ग्रेचुर्टी	जुड़ी भुगतान	कुल
1-04-15 को ग्राहिक शप	373562004	76760045	187741963	638064012
योग: अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त योगदान का पूंजीगत व्यय	0	0	0	0
कुल (ए)	373562004	76760045	187741963	638064012
कर्तव्य : वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (बी)	1995606	434326	7884074	10314006
31-03-2016 को उपलब्ध शेष सी (ए-बी) -	371566398	76325719	179857889	627750006
वास्तविक मूल्यांकन (डी) के लिए 31-3-2016 को आवश्यक प्रावधान	405275540	71140279	186280985	662696804
ए. जालू. वर्ष में लगाये गये प्रावधान (डी-सी)	33709142	-5185440	6423096	34946798
भी. नयी पेशन योगजा के लिए प्रावधान		0	0	0
सी. सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के मैडिकल पुनर्भुगतान	2731201			2731201
डी. सेवानिवृत्ति पर अपने शहर जाने के लिए यात्रा भता	254292			254292
ई. बीमा भुक्तान से जुड़ी जगा	0	0	0	0
F. Commutation of Pension paid during the year	8257393	0	0	8257393
कुल (ए +बी +सी + डी +ई)	44952028	-5185440	6423096	46189684

अनुसूची 16 शैक्षणिक व्यय रूपये

₹ में

	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) प्रयोगशाला व्यय			-		39,934	39,934
बी) फिल्ड कार्य/भागीदारी			-			-
सी) संगोष्ठी / कार्यशाला	809,971	212,681	1,022,652	1,762,832	194,650	1,957,482
डी) अतिथि संकाय को भुगतान		2,542,065	2,542,065		239,229	239,229
ई) परीक्षाएँ	1,834,922	206,981	2,041,903		1,510,944	1,510,944
एफ) विद्यार्थी कल्याम व्यय		112,730	112,730		95,009	95,009
जी) प्रवेश व्यय		2,346,630	2,346,630			-
एच) दीक्षांत समारोह व्यय			-			-
आई) प्रकाशन			-			-
जे) स्टाइरेंड/मीन्स-मेरिट छात्रवृत्ति		127,000	127,000		455,817	455,817
के) सदस्यता व्यय	2,850	170,697	173,547		295,857	295,857
एल) अन्य विशेष	15,000	916,755	931,755	1,947,878	110,317	2,058,195
कुल	2,662,743	6,635,539	9,298,282		2,941,757	6,652,467

अनुसूची 17— प्रशासनिक एवं समान्य व्यय

₹ में

	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए. आधारभूत संरचना			-			
ए. बिजली एवं ऊर्जा	20,282,673	2,286,147	22,568,820	13,500,000	7,093,127	20,593,127
बा). जल शुल्क	10,720,338	400	10,720,738	9,381,088	3,230,441	12,611,529
सी) बीमा	-	6,453	6,453		175,074	175,074
डी) भाडा, दरें एवं कर (संपत्तिकर सहित)	-	2,134,063	2,134,063		2,631,464	2,631,464
कुल (ए)	31,003,011	4,427,063	35,430,074	22,881,088	13,130,106	36,011,194
बी. संचार	-	-	-			-
ई) डाक एवं टेलीग्राम	-	410,713	410,713		545,290	545,290
एफ) टेलीफोन एवं इन्टरनेट शुल्क	1,885,343	1,992,568	3,877,911	14,781	1,712,261	1,727,042
कुल (बी)	1,885,343	2,403,281	4,288,624	14,781	2,257,551	2,272,332
सी . अन्य			-			-
जी) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	80,637	3,170,738	3,251,375	433,940	3,860,466	4,294,406
एच) यात्रा एवं भत्ता व्यय	145,081	3,539,301	3,684,382	12,095	3,014,570	3,026,665
आई) आतिथ्य	252,863	1,393,688	1,646,551	1,115	572,616	573,731
जे) लेखाकारों को अनुदान	-	-	-			-
के) व्यवहारिक शुल्क	-	388,477	388,477		153,405	153,405
एल) विज्ञापन एवं प्रचार	-	5,747,356	5,747,356		9,564,446	9,564,446
एम) पत्र-पत्रिकाएँ	4,950	172,072	177,022	20,670	35,798	56,468
एन) अन्य (विशेष)(एएमसी)	8,637,234	3,725,446	12,362,680	19,844,525	8,408,144	28,252,669
ो) Horticulture Expenses	-	-	-			
प) Legal Expenses	-	1,555,140	1,555,140			
क) Medicines, Instruments and Accessories	-	50,343	50,343			
र) Mess Expenses	-	-	-			
स) Miscellaneous Nd Contingencies	34,560	1,610,653	1,645,213			
त) Library Expenses	-	-	-			
उ) Annual Maintenance Charges	4,362,018	2,258,382	6,620,400			
व) Meeting Expenses	13,327	1,662,757	1,676,084			
ज) Facilities for Differently able persons	87,000	-	87,000			
कुल (सी)	13,617,670	25,274,353	38,892,023	20,312,345	25,609,445	45,921,790
कुल	46,506,024	32,104,697	78,610,721	43,208,214	40,997,102	84,205,316

अनुसूची 18— परिवहन व्यय

₹ में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1. वाहन (शैक्षणिक संस्था के निजी वाहन)						
ए) संचालन व्यय		246,913	246,913	-	82,616	82,616
बी) मरम्मत एवं रखरखाव		450,498	450,498	-	657,890	657,890
सी) बीमा व्यय		29,155	29,155	-	86,006	86,006
		726,566	726,566	-	826,512	826,512
2. भाड़े/लीज़ पर लिये गये वाहन:			-			-
ए) भाड़ा/लीज़ व्यय		104,769	104,769	-	282,813	282,813
			-			-
3. वाहन (टैक्सी) किराया व्यय		1,546,003	1,546,003	-	978,420	978,420
कुल	-	2,377,338	2,377,338	-	2,087,745	2,087,745

अनुसूची 19 – मरम्मत एवं रखरखाव

₹ में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) भवन	14,029,024	1,974,971	16,003,995	684,943	351,565	1,036,508
बी) फर्नीचर एवं फिक्सचर	155,311	246,616	401,927	27,982	58,176	86,158
सी) इकाई एवं मशिनरी	253,289	994,306	1,247,595	312,794	908,068	1,220,862
डी) कार्यालय उपकरण	41,213	232,625	273,838	305,325	291,375	596,700
ई) कंप्युटर्स	593,401	331,134	924,535	191,950	12,400	204,350
एफ) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण			-	-		-
जी) एडियो विज्वल उपकरण		21,280	21,280	-	9,650	9,650
एच) सफाई सामग्री सेवा	9,318	725,854	735,172	-	109,078	109,078
आई) पुस्तकों की जिल्द का शुल्क		300,096	300,096	-		-
झे) भागबानी	189,720	726,233	915,953	-	-	-
के) एस्टेट रखरखाव			-	-	-	-
एल) अन्य'(विशेष)	193,418	110,027	303,445	223,673	182,680	406,353
कुल	15,464,694	5,663,142	21,127,836	1,746,667	1,922,992	3,669,659

अनुसूची 20 – वित्त मूल्य

₹ में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) बैंक शुल्क	1,638	20,586	22,224	2,625	57,036	59,661
बी) अन्य (विशेष)						
कुल	1,638	20,586	22,224	2,625	57,036	59,661

अनुसूची 21 – अन्य व्यय

₹

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) रुग्न एवं संदिग्ध जमा/ अग्रिम का प्रावधान	-	-	-			
बी. अप्राप्तियोग्य जमा रखी गयी	-	-	-			
सी) अन्य संस्थानों/संगठनों द्वारा अनुदान/छूट	-	-	-			
डी. अन्य (विशेष)	17,472,345	45,488	17,517,833	20,023,080	-	20,023,080
कुल	17,472,345	45,488	17,517,833	20,023,080	-	20,023,080

अनुसूची 22 – पूर्व आवधि व्यय

₹ में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1. संस्थागत व्यय			-		5,791,566	5,791,566
2. शैक्षणिक व्यय		12,300	12,300		473,681	473,681
3. प्रशासनिक व्यय		846,975	846,975		248,950	248,950
4. परिवहन व्यय		-	-		-	-
5. मरम्मत एवं रखरखाव	1,310,800	6,146	1,316,946		224,658	224,658
6. अन्य	6,820,673	109,313	6,929,986	44,225	2,292	46,517
कुल	8,131,473	974,734	9,106,207	44,225	6,741,147	6,785,372

अनुसूची 23 – मूल्यहास

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के लिए मूल्यहास	172,542,158	194,310,403
कुल	172,542,158	194,310,403

महत्वपूर्व लेखा नीतियाँ

1. लेखा तैयार करने का आधार

विश्वविद्यालय का वर्षिक लेखा ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत प्रोब्लेम आधार पर तैयार किया गया है, जबकि सामान्य रूप से लेखा सिद्धांतों और मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संस्थानों में अमल में लाये जाने वाले लेखा मानकों की रिपोर्ट के अनुसार तैयार करने के लिए कहा गया है।

2. राजस्व मान्यताएँ

- 2.1 विद्यार्थियों से प्राप्त किया गया शुल्क, प्रवेश पत्र क्रम से प्राप्त राशि एवं बंधत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज नगद आधार पर दर्ज किया गया है।
- 2.2 कर्मचारियों को आवास भवन, वाहनों की खरीदी, कंप्यूटर के लिए दी गयी अग्रिम से प्राप्त ब्याज का व्यवहार नगद आधार पर किया गया है।
- 2.3 सावधि जमा पर ब्याज का हिसाब प्रोब्लेम पद्धति से किया गया है।

3. स्थिर परिसंपत्तियाँ एवं मूल्य हास

- 3.1 स्थिर परिसंपत्तियाँ खारीदी मूल्य और उसकी उपयोगिता के आधार पर कार्यस्थिति के किसी भी कारण ऐतिहासिक मूल्य आधार पर दर्शायी गयी हैं।
- 3.2 यदि प्राप्त की गयी संपत्तियाँ/जमा कार्य के बिलों का समाधान ठेकेदारों के साथ प्रभावी रूप से नहीं किया गया है, उसका निपटारा वर्ष के दौरान आवश्यक समायोजन कर अनंतिम आधार पर पूँजीकृत किया जाएगा।
- 3.3 स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कम मूल्यहास लागत के अनुसार किया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यहास अवलेखित मूल्यहास पद्धति से आयकर अधिनियम के अंतर्गत खरीदे गये दरों के आधार पर उपलब्ध कराया गया है। प्रथम अर्धवर्ष के दौरान प्राप्त की गयी परिसंपत्तियों पर पूर्ण मूल्यहास यथानुपात पद्धति पर अधिग्रहण/खरीदी/प्रारंभ/ स्थापना के अनुसार अपनाया गया है और इस उत्तरार्ध वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी परिसंपत्तियों पर 50 प्रतिशत मूल्यहास अपनाया गया है।

- 3.4 10000 रुपये तक की परिसंपत्तियों पर (पुस्तकालय की किताबों को छोड़ कर) संपूर्ण मूल्यहास उसके उपयोग के वर्ष के अनुसार किया गया है। इसके बावजूद संपत्तिधारकों द्वारा लेखा और नियंत्रण कार्य व्यक्तिगत रूप से किया जार रहा है।
- 3.5 जहाँ परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यहास किया गया है, उन्हें शेष मूल्य 1 रुपये के साथ तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा। इसके अलावा मूल्यहास प्रतिवर्ष के जोड़ को पृथक रूप से योग्य मूल्यहास दर के साथ संबंधित खातों में दर्शाया गया है।
- 3.6 अनुदान के अलावा निर्धारित निधियाँ, अधिग्रहति परिसंपत्तियाँ एवं प्रायोजित एजेन्सियों से प्राप्त निधियाँ जिसे उनके मालिकों द्वारा विश्वविद्याय के हवाले किया गया है, उन्हें उचित रूप से पूँजी निधि में स्थिर परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्य हास उनके योग्य मूल्य के अनुसार, लगाया गया है।
- 3.7 अगोचर परिसंपत्तियाँ : पेटेंट एवं कॉपी राई, ई जर्नल तथा कंप्युटर साफ्टवेयर अगोचर संपत्तियों के अंतर्गत रखे गये हैं।
4. वस्तु सूची: स्टोर से खरीदी गयी वस्तुओं एवं प्रकाशन को राजस्व खातों के अंतर्गत रखा गया है। इसके बावजूद संपत्तिधारकों द्वारा लेखा और नियंत्रण कार्य व्यक्तिगत रूप से किया जार रहा है।
5. निवेश
- निवेश का मूल्यांकन अधिग्रहण की कीमत के समावेशी मूल्य पर किया गया है।
6. सेवानिवृत्ति लाभ
- 6.1 सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेन्शन, ग्रैचिटी एवं छुट्टी के बदले नगद, ..जैसा कि अदा किया गया है, नगद आधार पर उपलब्ध कराए गये हैं।
- 6.2 सेवानिवृत्ति ग्रैचिटी, सेवानिवृत्ति पेन्शन एवं छुट्टियों के समायोजन का प्रावधान लेखा मानक 15 के अनुसार प्रोट्रिक्युल आधार पर किया गया है।

7. निर्धारित निधियों एवं धर्मस्व निधियों का निवेश

जिन निधियों की तत्काल उपयोगिता न हो उन्हें बचत/चालू बैंक खातों में सावधि जमा के रूप में अनुसूचित बैंकों में रखा गया है और उनसे प्राप्त ब्याज को संबंधित खातों में जमा किया जाता है।

8. वित्तीय प्रबंधन

विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों तथा भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों और वित्तीय परिसंपत्तियों के सिद्धांतों को अमल में लाया गया है।

9. भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान

- 9.1 भारत सरकार/यूजीसी द्वारा प्राप्त अनुदान को यथोचित रूप से प्राप्त होने के कारण प्रोट्रवन आधार पर मान्यता दी गयी है और संगठन उन अनुदानों को प्राप्त कर संलग्न करने की शर्तें पूरी कर लेगा।
- 9.2 वर्षात में उपयोग में लाये गये पूँजि अनुदान संग्रहित निधि को स्थानांतरित किये गये।
- 9.3 राजस्व व्यय के लिए प्राप्त किये गये अनुदान वर्ष की आय के रूप में (प्रोट्रवन आधार पर) दर्शाये गये, जिस व्यय के उद्देश्य से उन्हें प्राप्त किया गया था।
- 9.4 अनुदानों का उपयोग आगे ले जाया गया और तुलनपत्र में देयता के रूप में दर्शाया गया है।

10. विशिष्ट उद्देश्यीय निधि

- 10.1 विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण निधि, कर्चमारी कल्याण निधि, शिक्षण कल्याण निधि, अन्य निधि, विदेशी विद्यार्थी कल्याण निधि, प्रकाशन निधि, विकास निधि, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय निधि, शैक्षणिक उन्नति निधि एवं इसी तरह की अन्य विशिष्ट निधियों का संचालन करता है। हर निधि का अलग बैंक खाता होता है। जिन निधियों की तत्काल उपयोगिता न हो उन्हें सावधि जमा के रूप में निवेश किया जाता है और उनसे प्राप्त ब्याज को संबंधित खातों में जमा किया जाता है।

10.2 विश्वविद्यालय स्थायी कर्मचारियों को आवास भवन ऋण मंजूर करने के लिए चक्रवाती निधि रखता है। जिस राशि की तत्काल उपोयगिता न हो उन्हें सावधि जमा के रूप में निवेश किया जाता है। कर्मचारियों को मंजूर ऋण वापिस निधियों में जमा किया जाता है।

11. आयकर

विश्वविद्यालय की आय को आयकर अधिनियम के नियम 10 (23) (सी) के अंतर्गत आय से छूट है। इसलिए लेखा में करों का प्रावधान नहीं रखा गया है।

मी परम राव

Finance Officer
The English and Foreign Languages University
Hyderabad-500 007.

अनुसूची 25

आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ:

1. आकस्मिक देयताएँ—शून्य
2. पूंजीगत देयताएँ : शुरू नहीं किये गये ठेकों की जानकारी पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत रखी गयी है और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में 0.73 लाख रुपये नहीं दर्शाये गये हैं।
3. विश्वविद्यालय (पूर्व में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एण्ड फॉरन लैंग्वेजस) द्वारा 30 वर्ष के लिए (अप्रैल 1961 में) 30 एकड़ भूमि कुछ अस्थायी भवनों के साथ उसमानिया विश्वविद्यालय से 99 वर्ष के लिए लीज़ पर ली गयी और एनईएचयू से (2003) 5 एकड़ भूमि और मेधालय सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि (2010) 35 वर्ष के लिए दी गयी है।
4. मानार्थ दिये जाने वाली प्रतियों के प्रकाशन का 42,250 रुपये का मूल्य आय एवं व्यय खाते में नहीं दर्शाया गया है।
5. विदेशी मुद्रा में व्यय

ए. यात्रा	मारिशस 26975 रुपये	- 59360 रुपये
	3370 यूरो	- 252961 रुपये
	6260 डालर	- 419178 रुपये
	एसजीडी 788 डालर	- 40149 रुपये
बी.	अन्य	शून्य

6. बचत बैंक खातों, चालू बैंक खातों एवं स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में जमा चालू परिसंपत्तियों का खातों में शेष की विस्तृत जानकारी अनुसूची के ए संलग्न में दी गयी है।
7. चालू वर्ष के साथ जहाँ भी आवश्यक है पूर्व वर्ष के आंकड़े पुनःव्यवस्थित किये गये हैं।
8. सभी आंकड़ों को निकटतम रुपये में समायोजित किये गया है।
9. अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च 2017 के तुलन पत्र के एकीकृत भाग तथा वर्षांत के आय एवं व्यय खातां में रखा गया है।

10. भविष्य निधि खाते एवं नयी पेंशन योजना खाते संबंधित सदस्यों के हैं, विश्वविद्यालय के नहीं हैं। वर्ष के दौरान इन खातों को विश्व विद्यालय के खातों से अलग किया गया है। भविष्य निधि खाते तथा पेंशन योजना के प्राप्तियाँ एवं भुगतान एवं आय एवं व्यय खाते (प्रोफ्सन आधार पर) तुलन पत्र के साथ अलग से दर्शाये गये हैं। 150 कर्मचारियों के नयी पेंशन योजना का बड़ा हिस्सा (2.06 करोड़ रुपये) उन्हें आवंटित पीआरए नंबर के साथ केंद्रीय रिकार्ड एजेंसी(सीआरए) - राष्ट्रीय सुरक्षा जमा लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास जमा किया गया है। नयी पेंशन योजना में शेष 32 सदस्यों की राशि विश्वविद्यालय के पास है, जब उन्हें पीआरए नंबर आवंटित किया जाएगा, उनकी राशि एजेंसी को उन खातों में जमा की जाएगी।

6/1/2021
6/1/2021

Finance Officer
The English and Foreign Languages University
Hyderabad-500 007.

आर सुब्रमण्यम एण्ड कंपनी

चार्टेड अकाउंटेंट्स

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में

न्यासी

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्याय

कर्मचारी भविष्य निधि

तारनाका

हैदराबाद, 500007

वित्तीय बयानों पर रिपोर्ट

हमने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्याय के संलग्न वित्तीय बयानों का लेखा परीक्षण किया है, 'निधि' जिसमें 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र, आय एवं व्यय खातों के बयान तथा वर्षात का आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाता तथा अन्य स्पष्टीकरण से संबंधित जानकारी है।

वित्तीय बयानों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

हमारा उत्तरदायित्व है कि इन वित्तीय बयानों पर लेखा पर आधारित अपनी राय दें। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया। यह मानक नैतिक रूप से अनिवार्य हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह वित्तीय बयान किसी भी प्रकार की त्रुटी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षण के दौरान राशि तथा प्रकटनों की जाँच तथा उसके लिए तथ्य जुटाए जाते हैं। यह प्रक्रिया लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है, जिसमें वित्तीय बयानों की त्रुटियों के जोखम का आकलन भी शामिल है, यह जानना कि कहाँ इसमें धोखा या त्रुटी तो नहीं है। जोखम आकलनों के दौरान लेखा परीक्षण इस बात को निश्चित करेंगे कि निधियों के रखरखाव में आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रासंगिक है और वित्तीय बयान उचित परीक्षितियों में निष्पक्ष रूप से तैयार किया गये। लेखापरीक्षण में उपयोग में लायी गयी लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा बनाए गये खातों के आकलन में तर्कसंगतता, साथ ही वित्तीय बयानों की प्रस्तुति का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें उपलब्ध कराए गये सबूत पर्याप्त हैं और हमारी लेखापरीक्षण राय के लिए उचित हैं।

राय

हमारी राय और हमें प्राप्त उत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टिकरणों में पूर्वोक्त वित्तीय बयान पर्याप्त सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं ताकि भारत में समान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान की जा सके।

ए) 'निधि' मामलों का तुलनपत्र 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का है।

बी) आय एवं व्यय के बयान का मामला, उक्त तिथि में समाप्त वर्ष के लिए आय पर अधिक व्यय से संबंधित है।

अन्य विधि एवं नियामक अनिवार्यताओं पर रिपोर्ट

हम आगे बताते हैं:

ए) हमारी उत्तम जानकारी के अनुसार हमने सभी प्रकार की सूचनाएँ और स्पष्टिकरण प्राप्त की हैं और हमें विश्वास है कि हमारे लेखा परीक्षण के लिए यह पर्याप्त है।

बी) हमारी राय में निधि की खाता पुस्तकें जैसा कि हमारे सामने परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गयीं उचित रखी गयीं हैं।

सी) रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाता, खाता पुस्तकों के साथ समझौते के अनुसार है।

आर सुब्रमण्यम एण्ड कंपनी

चार्टेड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण नं. 004102एस

(नारायण पी एस)

भागीदार

एम एन. 027074

स्थान: हैदराबाद

तिथि

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
कर्मचारी भविष्य निधि, हैदराबाद 500007

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

	31 मार्च 2017 को रु. पै.	31 मार्च 2016 को रु. पै.
देयताएँ		
कर्मचारियों का योगदान	149,151,291.00	132,195,301.00
इफ्लू	753,393.00	645,063.00
व्यय पर अधिक आय	1,373,129.00	1,553,953.00
कुल	151,277,813.00	134,394,317.00
परिसंपत्तियाँ		
निवेश :		
सरकारी प्रतिभूतियों में		
केंद्र सरकारी प्रतिभूतियाँ	2,500,000.00	2,500,000.00
बॉन्ड्स में		
आईडीबीआई बैंक में बिन मियादी बॉन्ड्स 2020	3,005,700.00	3,005,700.00
यूको बैंक बॉन्ड्स, 2016	-	3,000,000.00
यूको बैंक बॉन्ड्स, 2020	-	2,030,200.00
टाटा स्टील लिमिटेड में बिनमियादी बॉन्ड्स, 2021	8,440,000.00	8,440,000.00
महाराष्ट्र राज्य सङ्क विकास बाइप्स	1,821,136.00	1,821,136.00
एसआरईआई इन्विपमेट फैनान्स प्रा. लि.	4,910,000.00	4,910,000.00
दि. मैसूर ऐपर मिल्स लि.	5,025,000.00	5,025,000.00
बैंकों में स्थिर जमा		
एसबीएच इफ्लू शाखा एफडीआर	88,827,343.00	79,210,097.00
एसबीएच के साथ विशेष जमा योजना	18,950,427.00	18,950,427.00
ऋण एवं अग्रिम		
एनपीएस से वापसीयोग्य	452,177.00	
बचत बैंक खातों में शेष		
ईडियन बैंक बचत बैंक खाता	8,039,442.00	732,177.00
एसबीएच इफ्लू शाखा बचत बैंक खाता	1,343,326.00	1,717,844.00
निवेश पर प्राप्त आय	7,963,262.00	3,051,736.00
कुल	151,277,813.00	134,394,317.00

संबंधित तिथि तक हासारी रिपोर्ट के अनुसार,

आर सुबमण्यम एवं कंपनी के लिए

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

चार्टेड एकाउंटेंट्स

कर्मचारी भविष्य निधि

(फर्म पंजीकरण संख्या. 004102ए)

नारायण पी एस

भागीदार

एम संख्या. 027074

स्थाना हैदराबाद,

न्यासी

न्यासी

TRUSTEE — TRUSTEE
The English & Foreign Languages University
Employees Provident Fund
TEFLU, Hyderabad - 500 077 - P

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
कर्मचारी भविष्य निधि, हैदराबाद 500007

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

31 मार्च 2017 के लिए

31 मार्च 2016 के लिए

रु. पै.

रु. पै.

आय

ब्याजः

केंद्र सरकारी ऋण	156,250.00	156,250.00
एसबीएच के साथ विशेष जमा योजना	1,526,512.00	1,647,503.00
आईडीबीआई बैंक में बिन मियादी बॉन्ड्स 2020	275,252.00	274,500.00
यूको बैंक बॉन्ड्स, 2016	29,845.00	280,500.00
यूको बैंक बॉन्ड्स, 2020	19,278.00	187,000.00
एसबीएच इपलू शाखा एफडीआर	6,364,695.00	6,979,981.00
महाराष्ट्र राज्य सङ्कर विकास बांड्स	162,992.00	162,991.00
एसआरईआई इकिवपरमेंट फैनास प्रा. लि.	500,000.00	500,000.00
दि मैसूर पेपर मिल्स लि.	424,000.00	424,000.00
टाटा स्टील लिमिटेड में बिनमियादी बॉन्ड्स, 2021 बचत खातों पर व्या	944,000.00	944,000.00
बचत खातों पर ब्याज	346,153.00	58,860.00
कुल	10,748,977.00	11,615,585.00

व्यय

योगदान पर ब्याज	10,929,801.00	11,126,251.00
बैंक शुल्क	-	156.00
कुल	10,929,801.00	11,126,407.00
व्यय पर अधिक आय	(180,824.00)	489,178.00
(आय पर व्यय) वर्ष के दौरान		
आय पर अधिक व्यय पर्व वर्ष से लाया गया।	1,553,953.00	1,064,775.00
व्यय पर अधिक आय	1,373,129.00	1,553,953.00
(आय पर व्यय) तुलन पत्र में लाया गया।		

संबंधित तिथि तक हामारी रिपोर्ट के अनुसार,

आर सुद्रमण्यम एवं कंपनी के लिए

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

चार्टेड एकाउंटेंट्स

कर्मचारी भविष्य निधि

(फर्म पंजीकरण संख्या. 004102ए)

नारायण पी एस

भागीदार

एम संख्या. 027074

स्थाना हैदराबाद,

तिथि

न्यासी

न्यासी

TRUSTEE
The English & Foreign Languages University
Employees Provident Fund
TEFLU, Hyderabad-500 007 A.P

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
कर्मचारी भविष्य निधि, हैदराबाद 500007

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाता

	₹.
प्रारंभिक शेष	2,450,021.00
आवृत्तियाँ	
कर्मचारियों द्वारा योगदान और ऋण वापसी	32,064,273.00
अवधि पूर्ण निवेश	
यूको बैंक बॉन्ड्स	5,030,200.00
एसबीएच इफ्लू शाखा एफडीआर	18,071,205.00
	23,101,405.00
निवेश पर प्राप्त ब्याज़:	
आईडीबीआई बैंक में बिन मियादी बॉन्ड्स 2020	275,252.00
एसआरआई इकिवपमेंट फैनान्स प्रा. लि.	500,000.00
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास बॉन्ड्स	10,000.00
दि ऐसूर पेपर मिल्स लि	424,500.00
टाटा स्टील लिमिटेड में बिनमियादी बॉन्ड्स, 2021 बचत खातों पर ब्याज़	944,000.00
यूको बैंक बॉन्ड्स, 2016	81,463.00
यूको बैंक बॉन्ड्स, 2020	122,195.00
केंद्र सरकारी ऋण	156,250.00
एसबीएच इफ्लू शाखा एफडीआर	1,397,799.00
बचत खातों	346,153.00
एसबीएच के साथ विशेष जमा योजना	1,558,491.00
	<u>5,816,103.00</u>
कुल	<u>63,431,802.00</u>
भुगतान	
ऋण अदा किया गया	3,686,376.00
अंतिम भुगतान तथा निकासी का भाग	22,243,378.00
	25,929,754.00
निवेश:	
एसबीएच इफ्लू शाखा एफडीआर	28,119,280.00
	28,119,280.00
कुल	54,049,034.00
समापन शेष	9,382,768.00
एसबीएच इफ्लू शाखा बचत खाता	1,343,326.00
इंडियन बैंक बचत खाता	8,039,442.00

संबंधित तिथि तक हामारी रिपोर्ट के अनुसार,

आर सुदूरमण्यम एवं कंपनी के लिए

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

चार्टेड एकाउंटेंट्स

कर्मचारी भविष्य निधि

(फर्म पंजीकरण संख्या. 004102ए)

नामावणि या एस

भागीदार

एम संख्या. 027074

स्थाना हैदराबाद,

तिथि

6/15/2017
TRUSTEE
The English & Foreign Languages University
Employees Provident Fund
TEFLU, Hyderabad-500 007 A.P

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि

अनुसूची -1 31व०3य2017 को समाप्त वर्ष के खातों के रखरखाव पर टिप्पणी

1. निवेश खरीदी के मूल्य पर बताये गये हैं।
2. सभी प्रकार के आय एवं व्यय (दावों के समधान को छोड़कर) प्रोन्दर्शन आधार पर दर्ज किये गये हैं।
3. चर्तमान प्रस्तुति के साथ पुर्व वर्ष की संख्या को आवश्यकतानुसार, एकत्रित किया गया है/पुनः लिखा गया है।

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

कर्मचारी भविष्य निधि

न्यासी

न्यासी

स्थाना हैदराबाद,
तिथि

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
एनपीएस खाते

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

	31 मार्च 2017 को रु. पै.	31 मार्च 2016 को रु. पै.
देयताएँ		
कर्मचारियों का योगदान	15,114,668	17,151,638
नियोक्ता का योगदान योगदान पर देय ब्याज	14,910,132	16,793,448
योगदान पर देय ब्याज	12,139,256	10,420,998
इफ्लू जीपीएफ	452,177	
इफ्लू	3,041	9,597
जीपीएफ	7,620	-
कुल	42,626,894	44,375,681
परिसंपत्तियाँ		
निवेशः		
बैंकों में जमा स्थिर जमा		
एसबीएच इफ्लू शाखा एफडीआर	39,477,741	42,668,915
बचत खातों में शेष		
एसबीएच इफ्लू शाखा बचत खाता	67,337	3,015
एफडीआर पर अर्जित ब्याज	3,081,816	1,703,751
कुल	42,626,894	44,375,681

(ग्राहक द्वारा)

Finance Officer
The English and Foreign Languages University
Hyderabad-500 007.

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
एनपीएस खाते

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

	31 मार्च 2017 के लिए	31 मार्च 2016 के लिए
	रु. पै.	रु. पै.

आय

एसबीएच इफ्लू शाखा एफडीआर पर ब्याज	3,356,282	3,484,365
एसबीएच इफ्लू शाखा बचत खाते पर ब्याज	68,636	65,770
कुल	<u>3,424,918</u>	<u>3,550,135</u>

व्यय

अदा किया गया/योगदान को अदा करने योग्य ब्याज	3,424,918	3,550,135
कुल	<u>3,424,918</u>	<u>3,550,135</u>

५८५१२५ २८९

Finance Officer
The English and Foreign Languages University
Hyderabad-500 007.

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
एनपीएस खाते

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आवृत्तियाँ एवं भुगतान खाते

	रुपये
प्रारंभिक शेष	3,015
आवृत्तियाँ	
योगदान प्राप्त किया गया	
कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा	27,744,174
अवधि पूर्ण निवेश:	
एसबीएच इफ्टू शाखा एफडीआर	20,634,097
निवेश पर प्राप्त ब्याज़:-	
एसबीएच इफ्टू शाखा एफडीआर	1,978,217
बचत खातों पर प्राप्त ब्याज	68,636
कुल	<u>50,425,124</u>
भुगतान	
भुगतान अंतिम	
एनएसडीएल को भुगतान	20,583,708
जीपीएफ खातों को स्थानांतरित	7,539,034
इफ्टू को पुनर्भुगतान किया गया नियोक्ता का योगदान	5,247,314
निवेश:	
एसबीएच इफ्टू शाखा एफडीआर	16,990,746
कुल	<u>50,360,802</u>
समापन शेष	
एसबीएच इफ्टू शाखा एफडीआर बचत खाता	67,337

Finance Officer
The English and Foreign Languages University
Hyderabad-500 007.

एनपीएस : 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय बयानों पर टिप्पणियाँ

1. 1.1.2004 के बाद विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नयी पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। कर्मचारियों के बेतन से 10 प्रतिशत राशित और इसी के समान विश्वविद्यालय का योगदान लिया जाता है। यह योगदान नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड(एनएसडीएल) को उस खाते में भेजी जाती है, जो कर्मचारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के रूप में प्राप्त होती है।
2. खुँछ कर्मचारी हैं, जिन्होंने पीआरएएन संख्या प्राप्त नहीं की है। इसके कारण निम्न प्रकार हैं।

ए) वे पुरानी पेंशन योजना(जीपीएफ) से लाभान्वित होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सेवा पूर्व नियोक्ता से प्राप्त की गयी है। उस नियोक्ता की ओर से जीपीएफ योगदान अभी तक जारी नहीं किया गया है।

बी) उन्होंने पीआरएएन संख्या के लिए आवेदन किया है, जिसकी उन्हें प्रतीक्षा है और इसके बिना एनएसडीएल को अपना योगदान दाखिल नहीं किया जा सकता।

सी) उन्हें एनपीएस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने के खिलाफ वे अदालत से संपर्क कर चुके हैं।

उक्त मामलों में योगदान एक अलग खाते में एसबीएच इफ्लू शाखा में रखा गया है और एसबीएच के स्थिर जमा खाते में निवेश किया गया है।

3. योगदान(8 प्रतिशत वार्षिक व्याज के साथ समाधान तक) को उसके अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा।
4. एनपीएस खातों में रखी गयी शेष राशि एफडीआर पर अर्जित व्याज के साथ संलग्न बयानों में दर्शायी गयी है, जिसे उस अनुपात में व्यक्तिगत खातों में जमा किया जाने का प्रस्ताव है।